



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 29—नवम्बर 4, 2011 (कार्तिक 7, 1933)

No. 44]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29—NOVEMBER 4, 2011 (KARTIKA 7, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

#### रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

रक्षा (एमएस)/अनुभाग

सं. 486, दिनांक 28 सितम्बर 2011—राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 अगस्त 2011 से निम्नलिखित नियुक्ति करती हैं:--

प्रधान अवैतनिक वायु सेना एडीसी

एयर चीफ मार्शल एनएके ब्राउन, पीविसेमै, एवीएसएम, वामै, एडीसी (13129), एफ (पी)

अवैतनिक वायु सेना एडीसी

एयर मार्शल डी कुकरेजा, एवीएसएम, वीएसएम, (13130), एफ(पी)  
राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 सितम्बर 2011 से निम्नलिखित नियुक्ति करती हैं:--

अवैतनिक वायु सेना एडीसी

एयर मार्शल डीसी कुमारिया, एवीएसएम, विसेमै, वा, मै (13366), एफ (पी)

आर सुन्दर  
अवर सचिव

#### थल सेना विभाग

सं. 487, दिनांक 28 सितम्बर 2011--थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 10(3)(1)05/डीमेड, 28 अक्टूबर 05 यथासंशोधित के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए करते हैं :--

#### नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन के पद पर (परख पर)

कैप्टन सुश्री दिव्या (डीएस-12375एल) 16 अप्रैल 2010

कैप्टन सन्नी बंगा (डीएस-12361एल) 26 अगस्त 2009

कैप्टन श्रीनिवास गौड़ा एसटी (डीएस-12368पी) 03 सितम्बर 2009

कैप्टन सुधाकर वी (डीएस-12398एम) 06 नवम्बर 2010

थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 10(3)(1)05/डीमेड, 28 अक्टूबर 2005

यथासंशोधित के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन के पद पर (परख पर)

कैप्टन ओलीवर जैकब (डीआर-10630एन), 20 जून 2009

महेश चन्द्र

मेजर जनरल

एडीजीडीजीडीएस

-----

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 488, दिनांक 28 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + 5,400/- ग्रेड पे रु. के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2009एबी1127 सुश्री संजीता धेगय, एआरडीई, पुणे, 03 जून 2009

2009एबी1081 श्री वी प्रवीण कुमार, अनुराग, हैदराबाद, 03 जून 2009

2010एबी8046 श्री के सोमशेखर, केब्स, बेंगलुरु, 19 मई 2010

2010एबी1154 श्री श्रीराम रंजीत कुमार, सीवीआरडीई, चेन्नई, 19 मई 2010

2009एबी1679 श्री रामराज सिंह, सीएफईईएस, दिल्ली, 10 अगस्त 2009

2009एबी1452 सुश्री नीतू एस, डेबेल, बेंगलुरु, 03 जून 2009

2008एबी1311 श्री बी शंकर राव, डीएलआरएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2009एबी1118 श्री अखिलेश कुमार, डीएलआरएल, हैदराबाद, 03 जून 2009

2009एबी1039 श्री प्रदीप कुमार खेर, डीएलआरएल, हैदराबाद, 03 जून 2009

2008एबी1315 श्री हिलोल कुमार नंदी, डीएलआरएल, हैदराबाद, 22 मई 2008

2009एबी1387 श्री सुकुमार जी, डीएमआरएल, हैदराबाद, 15 दिसम्बर 2009

2008एबी1377 श्री त्रिलोचन जेना, डीएलआरएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2007एबी1102 श्री डोसला श्रीधर, डीएलआरएल, हैदराबाद, 23 मई 2007

2008एबी1354 श्री चीनिमिला देवेद्रनाथ, डीएलआरएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2009एबी1514 श्री विकास कुमार गुप्ता, डीआरएल, तेजपुर, 08 अप्रैल 2009

2010एबी1168 श्री सुधींद्र नायक, जीटीआरई, बेंगलुरु, 19 मई 2010

2009एबी1249 श्री विकास चन्द्र यादव, जीटीआरई, बेंगलुरु, 03 जून 2009

2009एबी1009 श्री विश्वकर्मा राहुल लालमणि, एलआरडीई, बेंगलुरु, 03 जून 2009

2009एबी1225 श्री राकेश एमएस, एनपीओएल, कोच्ची, 03 जून 2009

2009एबी1446 श्री तन्मय मोहन्ती, पीएक्सई, चांदीपुर, 03 जून 2009

2009एबी1375 श्री विक्रम टी, आरसीआई, हैदराबाद, 03 जून 2009

2008एबी1512 श्री जीआर गौतम रेड्डी, आरसीआई, हैदराबाद, 14 अगस्त 2008

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

डॉ. जयंत डॉनियल (पिन 2010एसी1002) को दिनांक 28 मई 2010 से रु. 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + रु. 6,600/- ग्रेड पे के वेतनमान में एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा, डेबेल, बेंगलुरु में अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप 'ए') के पद पर नियुक्त किया जाता है।

वी पी पांडे

सह-निदेशक (कार्मिक)

-----

सेना शाखा

सं. 489, दिनांक 29 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आईसी सं., नाम, आर्म और सब्सटेंटिव तिथि

(आईसी-34428वाई) एस वी गुरुंग, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

(आईसी-45345एन) आरआरएनआर सिंदे, एसी, 09 नवम्बर 2010

(आईसी-45352के) राजीव सखन, जैक डिपो, 09 नवम्बर 2010

(आईसी-45362एन) एस दबोलकर, गार्ड्स, 24 अप्रैल 2011

(आईसी-45379एफ) राजीव पुंज, इन्फैन्ट्री, 24 अप्रैल 2011

- (आईसी-45381वाई) एसपी सिंह, एसी, 24 अप्रैल 2011
- (आईसी-45393एन) देवाशिष खान, आर्टी, 24 अप्रैल 2011
- (आईसी-45406ए) पी मनदोत्रा, एसी, 24 अप्रैल 2011
- (आईसी-45424एच) एमके विग, ईएमई, 24 अप्रैल 2011
- (वी-00385एच) एचके श्रीवास्तव, आरवीसी, 26 नवम्बर 2010
- (आईसी-37041एफ) आरएस सांगवान, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
- (आईसी-42260एम) एसके शर्मा, ईसी, 09 जून 2010
- (आईसी-42604ए) एसके अहलावत, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42762पी) उमेश यादव, ईएमई, 08 जून 2011
- (आईसी-42814ए) वीएन दूबे, एएससी, 08 जून 2011
- (आईसी-42815एच) एमकेदास, गार्ड्स, 08 जून 2011
- (आईसी-42846एच) एवीआर राव, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-42883डब्ल्यू) आरएस रत्ना, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-42884वाई) एडीतेनसिंह, सिग्नल्स, 08 जून 2011
- (आईसी-42890एम) एसएस पोगट, गार्ड्स, 08 जून 2011
- (आईसी-42918एफ) एन के रॉय, एएससी, 08 जून 2011
- (आईसी-42927एच) ए पाण्डे, सिग्नल्स, 08 जून 2011
- (आईसी-42932एन) जे एस दलाल, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-42943ए) एस के शुक्ला, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-42944एच) ए एस चहर, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-42948वाई) ए के सिंह, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-42969पी) आर वी चौधरी, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-42986पी) दिनेश कुमार, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-42989एच) महिपाल सिंह, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-42997एफ) बाबू लाल, ईएमई, 08 जून 2011
- (आईसी-43006पी) आरडी बहुगुणा, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-43007एक्स) विश्वजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-43013एल) एस के सिंह, इन्ट कोरप, 08 जून 2011
- (आईसी-43044एल) आर के राणा, इन्ट कोरप, 08 जून 2011
- (आईसी-43046एक्स) एन जे सिंह, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-43066के) एसएस ललोतरा, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-43091एच) वीएसएन वशिष्ठ, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-43092एल) रामपाल, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-43099पी) वीएन भारद्वाज, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-43105एक्स) एस के भारद्वाज, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-43125एल) ए के चक्रवर्ती, सिग्नल्स, 08 जून 2011
- (आईसी-43138एच) राजेन्द्रन नायर, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-43153एक्स) राजीव रतन, इंजीनियर्स, 08 जून 2011
- (आईसी-43154ए) आर के नायर, ईएमई, 08 जून 2011
- (आईसी-43161डब्ल्यू) हरजीत सिंह, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-44968एल) आरडी सिंघल, इंजीनियर्स, 13 जून 2011
- (आईसी-45165एल) एस के सेहरावत, इन्फैन्ट्री, 10 नवम्बर 2009
- (आईसी-45206के) सुरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 25 अप्रैल 2010
- (आईसी-45303एफ) सुनील संख्यान, एसी, 09 नवम्बर 2010
- (आईसी-45372एक्स) पी के यादव, एसी, 24 अप्रैल 2011
- (आईसी-45387ए) आरपी सिंह, एएडी, 20 अप्रैल 2011
- (आईसी-42414एन) राजेश राय, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42822वाई) के पी ढाका, एएससी, 08 जून 2011
- (आईसी-42850एल) नरेन्द्र सिंह, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-42901एन) विनोद तनेजा, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-42913एच) सुशील गुरुंग, मैक इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-42984के) एस जोसेफ, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-43014एन) गौतम कलिय, मैक इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-43019एम) वी तनेजा, सिग्नल्स, 08 जून 2011
- (आईसी-43030एल) राजीव धर, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-43031एन) अमरीक सिंह, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011
- (आईसी-43036एम) वी एस भटनागर, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-43043एच) एस के कटियाल, सिग्नल्स, 08 जून 2011
- (आईसी-43045एन) विक्रम सिंह, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-43052के) ए के पाण्डे, एएससी, 08 जून 2011
- (आईसी-43060एच) सुनील सिंह, सिग्नल्स, 08 जून 2011
- (आईसी-43062एन) अमिताभ सिंह, आर्टी, 08 जून 2011
- (आईसी-43065एफ) एस के गुप्ता, एओसी, 08 जून 2011
- (आईसी-43083के) वी एस शिभरेण, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011

(आईसी-43085पी) एस एस राणा, इंफैंट्री, 08 जून 2011  
 (आईसी-43098एम) पी के झा, सिग्नल्स, 08 जून 2011  
 (आईसी-43107एच) वी के शोरी, आर्टी, 08 जून 2011  
 (आईसी-43109एन) एस के रॉय, एएडी, 08 जून 2011  
 (आईसी-43114वाई) जे एस गुरुंग, एसी, 08 जून 2011  
 (आईसी-43133के) एल शर्मा, एओसी, 08 जून 2011  
 (आईसी-43134एम) संजय माथुर, आर्टी, 08 जून 2011  
 (आईसी-43137ए) संजय रावत, एएससी, 08 जून 2011  
 (आईसी-43141एच) संजय कोठारी, आर्टी, 08 जून 2011  
 (आईसी-43146एफ) राहुल जौहरी, मैक इंफैंट्री, 08 जून 2011  
 (आईसी-43148एम) ए के शर्मा, इंफैंट्री, 08 जून 2011  
 (आईसी-43151एम) जी पी सिंह, एओसी, 08 जून 2011  
 (आईसी-44868ए) आर शर्मा, इंजीनियर्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44872एच) के के मिश्रा, इंजीनियर्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44876वाई) कृष्णा किशोर, इंजीनियर्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44887एल) राजीव अग्रवाल, इंजीनियर्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44892डब्ल्यू) वी के सिंह, इंजीनियर्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44904ए) वी के पाण्डे, ईएमई, 13 जून 2011  
 (आईसी-44905एच) सचिन मारवाह, ईएमई, 13 जून 2011  
 (आईसी-44910एन) आर वी सुब्रह्मण्यम, ईएमई, 13 जून 2011  
 (आईसी-44917एक्स) विद्या सागर, इंजीनियर्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44918ए) एस के शंख्यान, इंजीनियर्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44925डब्ल्यू) पी वी सबले, सिग्नल्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44932एम) ए के सिंह, इंजीनियर्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44940एल) वी पी कुमार, सिग्नल्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44950पी) ए एम रमाचन्द्र, सिग्नल्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44951एक्स) जी जी के नायर, इंजीनियर्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44956डब्ल्यू) एस आर केलेनिया, इंजीनियर्स, 13 जून

2011

(आईसी-44957वाई) जी वाई एस रेड्डी, ईएमई, 13 जून 2011  
 (आईसी-44973डब्ल्यू) विजय सिंह, ईएमई, 13 जून 2011  
 (आईसी-44974वाई) वी के शर्मा, सिग्नल्स, 13 जून 2011  
 (आईसी-44976के) टी हेज, ईएमई, 13 जून 2011  
 (आईसी-44985एल) प्रकाश कुमार एम पी, इंजीनियर्स, 13 जून

2011

(आईसी-44986एन) शैलाब खैर, सिग्नल्स, 13 जून 2011

(आईसी-45408एल) राजेन्द्र सिंह, एसी, 24 अप्रैल 2011

मेजर से ले कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

(आईसी-38520पी) हरजशपाल सिंह गिल, आर्टी, 14 जनवरी 2000

टी के दास

उप निदेशक

एमएस-8ए

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 490, दिनांक 29 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

मेजर से लेफ्ट कर्नल (टीएस)

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या व पदोन्नति की तारीख

लेफ्ट कर्नल एस जी ज्योति (एनआर-19901एफ), 14 सितम्बर 2010

लेफ्ट कर्नल सुमा के एस (एनआर-19902के), 14 सितम्बर 2010

लेफ्ट कर्नल निशा सथिसन पी (एनआर-19904पी), 14 सितम्बर 2010

लेफ्ट कर्नल शीला एस वी (एनआर-19905एक्स), 14 सितम्बर 2010

लेफ्ट कर्नल शीबा जैकब (एनआर-19907एच), 14 सितम्बर 2010

लेफ्ट कर्नल जैस्सी वर्गिस, (एनआर-19908एल), 14 सितम्बर 2010

लेफ्ट कर्नल सैजा वी पी (एनआर-19909एन), 14 सितम्बर 2010

लेफ्ट कर्नल जैन्सी पी एस (एनआर-19912एन), 14 सितम्बर 2010

लेफ्ट कर्नल सुषमा थॉमस (एनआर-19914वाई), 14 सितम्बर 2010

लेफ्ट कर्नल पूनम दूबे (एनआर-19915एफ), 14 सितम्बर 2010

लेफ्ट कर्नल रीतम्मा वी जे (एनआर-19916के), 14 सितम्बर 2010

लेफ्ट कर्नल मर्सी मथाई के (एनआर-19917एम), 14 सितम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल मरियम्मा थॉमस (एनआर-19920एम), 14 सितम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल लिली कुमारी (एनआर-19922एक्स), 14 सितम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल जया सी आर (एनआर-19923ए), 14 सितम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल नीलम कुमारी (एनआर-19925एल), 14 सितम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल सुसम्मा जॉर्ज (एनआर-17958एक्स), 28 दिसम्बर 2003

#### कैप्टन से मेजर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या व पदोन्नति की तारीख

मेजर चंचल अरोड़ा (एनआर-20776पी), 21 अगस्त 2010

मेजर ए प्रिस्सीलाल देवकीरूबड़ (एनआर-20779एक्स), 21 अगस्त 2010

मेजर अनिता नायर डी (एनआर-20780एक्स), 21 अगस्त 2010

मेजर बी विजया (एनआर-20781ए), 21 अगस्त 2010

मेजर पूनम सिंह (एनआर-20782एच), 21 अगस्त 2010

मेजर प्रिती बंसल (एनआर-20784पी), 21 अगस्त 2010

मेजर गीता रावत (एनआर-20786ए), 21 अगस्त 2010

मेजर माया प्रदीप (एनआर-20787एफ), 21 अगस्त 2010

मेजर श्वेता देवरानी (एनआर-20788के), 21 अगस्त 2010

मेजर शीला एन (एनआर-20789एम), 21 अगस्त 2010

मेजर पिकी नाहा (एनआर-20791के), 21 अगस्त 2010

मेजर एन कल्पना (एनआर-20792एम), 21 अगस्त 2010

मेजर चित्रा नायर (एनआर-20793पी), 21 अगस्त 2010

मेजर शिजी के एस (एनआर-20794एक्स), 21 अगस्त 2010

मेजर दीपामोल एम एस (एनआर-20796एच), 21 अगस्त 2010

मेजर शुभा एस (एनआर-20797एल), 21 अगस्त 2010

मेजर बेबी एनी ए (एनआर-20798एन), 21 अगस्त 2010

मेजर एलिस जॉन (एनआर-20799डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010

मेजर रीतु सैनी (एनआर-20800ए), 21 अगस्त 2010

मेजर सुष्मिता कुमारी (एनआर-20803एन), 21 अगस्त 2010

मेजर सुनिता शर्मा (एनआर-20804डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010

मेजर स्मिता रानी ई एन (एनआर-20805वाई), 21 अगस्त 2010

मेजर मंजु एस के (एनआर-20806एफ), 21 अगस्त 2010

मेजर लेखा सी (एनआर-20807के), 21 अगस्त 2010

मेजर श्रीजा एल (एनआर-20808एम), 21 अगस्त 2010

मेजर जियोगी बी वी (एनआर-20810के), 21 अगस्त 2010

मेजर गुरपिन्दर कौर (एनआर-20811एम), 21 अगस्त 2010

मेजर सीमा पटेल (एनआर-20812पी), 21 अगस्त 2010

मेजर बिनी बालाकृष्णन (एनआर-20813एक्स), 21 अगस्त 2010

मेजर शिजा पी आर (एनआर-20814ए), 21 अगस्त 2010

मेजर सेली जेवियर (एनआर-20815एच), 21 अगस्त 2010

मेजर लता कुमारी एम एस (एनआर-20816एल), 21 अगस्त 2010

मेजर रीना पंकज (एनआर-20817एम), 21 अगस्त 2010

मेजर अंजु बाला (एनआर-20818डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010

मेजर सुभद्रा कुमारी (एनआर-20819वाई), 21 अगस्त 2010

मेजर सरोज शर्मा (एनआर-20820वाई), 21 अगस्त 2010

मेजर विंसी जेम्स (एनआर-20821डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010

मेजर शीबा आर (एनआर-20823एफ), 21 अगस्त 2010

मेजर स्मिता सैम्युल (एनआर-20824के), 21 अगस्त 2010

मेजर बिन्दु ए के (एनआर-20825एम), 21 अगस्त 2010

मेजर जैसमीन टी ग्रैसी (एनआर-20826पी), 21 अगस्त 2010

मेजर श्रीकला पी (एनआर-20827एक्स), 21 अगस्त 2010

मेजर बसुन्धरा पाल (एनआर-20828ए), 21 अगस्त 2010

मेजर शुभा बैनर्जी (एनआर-20829एच), 21 अगस्त 2010

मेजर टुकुन कंसाबानिक (एनआर-20830एक्स), 21 अगस्त 2010

मेजर विजयाकुमारी के एस (एनआर-20831ए), 21 अगस्त 2010

मेजर शैली वी एम (एनआर-20832एच), 21 अगस्त 2010

मेजर संध्या वी एस (एनआर-20833एल), 21 अगस्त 2010

मेजर आरती बसु राय (एनआर-20834एन), 21 अगस्त 2010

मेजर सुसन स्कारिया (एनआर-20835डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010

मेजर सुषमा कुमारी (एनआर-20836वाई), 21 अगस्त 2010

मेजर वन्दना महिष (एनआर-20837एफ), 21 अगस्त 2010

मेजर एन सजिला (एनआर-20840एफ), 21 अगस्त 2010

मेजर राजी टी शेखर (एनआर-20841के), 21 अगस्त 2010

मेजर ऊर्मी धामी (एनआर-20842एम), 21 अगस्त 2010

मेजर बिजी पॉल (एनआर-20843पी), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सुमा जॉर्ज (एनआर-20844एक्स), 21 अगस्त 2010  
 मेजर रोसम्मा आर (एनआर-20845ए), 21 अगस्त 2010  
 मेजर श्रीलता ए (एनआर-20846एच), 21 अगस्त 2010  
 मेजर एल सुशा कुमारी (एनआर-20847एल), 21 अगस्त 2010  
 मेजर बलजीत कौर (एनआर-20848एन), 21 अगस्त 2010  
 मेजर लीना (एनआर-20850एल), 21 अगस्त 2010  
 मेजर प्रभा कुमारी (एनआर-20851एन), 21 अगस्त 2010  
 मेजर स्वागता मोहिते (एनआर-20852डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 मेजर रीता रॉय चौधरी (एनआर-20853वाई), 21 अगस्त 2010  
 मेजर बीना ईसाक (एनआर-20854एफ), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सस्मिता (एनआर-20855के), 21 अगस्त 2010  
 मेजर श्रीजया बी (एनआर-20857पी), 21 अगस्त 2010  
 मेजर निरूपमा टी (एनआर-20860पी), 21 अगस्त 2010  
 मेजर रेहाना ए (एनआर-20861एक्स), 21 अगस्त 2010  
 मेजर शाइनी मैथ्यू (एनआर-20862ए), 21 अगस्त 2010  
 मेजर मिताली सरकार (एनआर-20863एच), 21 अगस्त 2010  
 मेजर श्वेता माधवन (एनआर-20864एल), 21 अगस्त 2010  
 मेजर वीना पाठक (एनआर-20865एन), 21 अगस्त 2010  
 मेजर बिन्दु जे (एनआर-20866डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 मेजर रेखा रानी शर्मा (एनआर-20868एफ), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सिवाबकियम एस (एनआर-20869के), 21 अगस्त 2010  
 मेजर संदीप कौर वराइच (एनआर-20871एफ), 21 अगस्त 2010  
 मेजर मुकाबनिशा जे सुन (एनआर-20872के), 21 अगस्त 2010  
 मेजर विनीता एम (एनआर-20873एम), 21 अगस्त 2010  
 मेजर दीपा एस नाथ (एनआर-20874पी), 21 अगस्त 2010  
 मेजर रीना ए एस (एनआर-20875एक्स), 21 अगस्त 2010  
 मेजर लैसी फर्नान्डिस (एनआर-20876ए), 21 अगस्त 2010  
 मेजर रीना थॉमस (एनआर-20878एल), 21 अगस्त 2010  
 मेजर मंजुषा ए के (एनआर-20879एन), 21 अगस्त 2010  
 मेजर आशा के अब्राहम (एनआर-20880एच), 21 अगस्त 2010  
 मेजर पूजा शर्मा (एनआर-20882एन), 21 अगस्त 2010  
 मेजर श्रवणी मलिक (एनआर-20883डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सुमन कुमारी शर्मा (एनआर-20884वाई), 21 अगस्त 2010

मेजर कंचन कुमारी (एनआर-20885एफ), 21 अगस्त 2010  
 मेजर चंदना कुमारी (एनआर-20886के), 21 अगस्त 2010  
 मेजर अल्का थॉमस (एनआर-20888पी), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सुमना भट्टाचार्य (एनआर-20889एक्स), 21 अगस्त 2010  
 मेजर स्टीजा के एस (एनआर-20890एम), 21 अगस्त 2010  
 मेजर श्रीकला के एस (एनआर-20891पी), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सुनीता सिन्हा (एनआर-20892एक्स), 21 अगस्त 2010  
 मेजर वीरपाल कौर सिद्धू (एनआर-20893ए), 21 अगस्त 2010  
 मेजर विनीता एम ए (एनआर-20894एच), 21 अगस्त 2010  
 मेजर जोलम्मा डेनियल (एनआर-20895एल), 21 अगस्त 2010  
 मेजर शीबा सिजी (एनआर-20896एन), 21 अगस्त 2010  
 मेजर पैट्रिशिया स्टीफन (एनआर-20897डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सोमी के साइमन (एनआर-20898वाई), 21 अगस्त 2010  
 मेजर श्रीजा के (एनआर-20899एफ), 21 अगस्त 2010  
 मेजर मैबी जोसफ (एनआर-20901एन), 21 अगस्त 2010  
 मेजर निशा वी भास्कर (एनआर-20902डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 मेजर जयश्री बनर्जी (एनआर-20904एफ), 21 अगस्त 2010  
 मेजर आईरिन फ्रांसिस (एनआर-20905के), 21 अगस्त 2010  
 मेजर उर्वशी (एनआर-20906एम), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सुनीला एन्थानी (एनआर-20907पी), 21 अगस्त 2010  
 मेजर कौसर बानो (एनआर-20908एक्स), 21 अगस्त 2010  
 मेजर भारती एवन्सियो (एनआर-20909ए), 21 अगस्त 2010  
 मेजर एम रजिनी (एनआर-20910एफ), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सुमति के (एनआर-20911एक्स), 21 अगस्त 2010  
 मेजर गरिमा सिंह (एनआर-20912ए), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सिन्धुविजयलक्ष्मी (एनआर-20914एल), 21 अगस्त 2010  
 मेजर श्रीकला पी एस (एनआर-20915एन), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सबिता दास (एनआर-20916डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 मेजर मुथुसेल्वी एन (एनआर-20917वाई), 21 अगस्त 2010  
 मेजर ज्योत्सना जी बजन्तरी (एनआर-20920वाई), 21 अगस्त 2010  
 मेजर निशा माधवन (एनआर-20925एक्स), 21 अगस्त 2010  
 मेजर एन्सी पी जॉन (एनआर-20927एच), 21 अगस्त 2010  
 मेजर लेखा नायर (एनआर-20928एल), 21 अगस्त 2010  
 मेजर रेखा शर्मा (एनआर-20929एन), 21 अगस्त 2010

मेजर मालती गोप (एनआर-20930एच), 21 अगस्त 2010  
 मेजर निर्मला बिष्ट (एनआर-20931एल), 21 अगस्त 2010  
 मेजर स्मिता वी एस (एनआर-20933डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सुमन बाला (एनआर-20937एम), 21 अगस्त 2010  
 मेजर आरती दीक्षित (एनआर-20942एक्स), 21 अगस्त 2010  
 मेजर निशी समद (एनआर-20943ए), 21 अगस्त 2010  
 मेजर बबिता पी वी (एनआर-20946एन), 21 अगस्त 2010  
 मेजर एम गीता टेस्टीमोना (एनआर-20947डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 मेजर उपासना गुप्ता (एनआर-20948वाई), 21 अगस्त 2010  
 मेजर टी सिन्धु (एनआर-20949एफ), 21 अगस्त 2010  
 मेजर लैरिश वी (एनआर-20952एफ), 21 अगस्त 2010  
 मेजर महालक्ष्मी नोथालाप (एनआर-20953के), 21 अगस्त 2010  
 मेजर मीना सुमन (एनआर-20955पी), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सतबीर कौर (एनआर-20956एक्स), 21 अगस्त 2010  
 मेजर स्मिता आर (एनआर-20958एच), 21 अगस्त 2010  
 मेजर मंजु पी (एनआर-20959एल), 21 अगस्त 2010  
 मेजर रीना चौहान (एनआर-20960ए), 21 अगस्त 2010  
 मेजर श्रीदेवी एस (एनआर-20961एच), 21 अगस्त 2010  
 मेजर मुक्ता कुमारी वर्मा (एनआर-20962एल), 21 अगस्त 2010  
 मेजर मीना गिल (एनआर-20967के), 21 अगस्त 2010  
 मेजर वुंगथियान चिंग सिमटे (एनआर-20968एम), 21 अगस्त 2010  
 मेजर लिनी विन्सेंट (एनआर-20972पी), 21 अगस्त 2010  
 मेजर स्मिता सैम (एनआर-20974ए), 21 अगस्त 2010  
 मेजर शिल्पी कुमारी (एनआर-20975एच), 21 अगस्त 2010  
 मेजर जी सबीना (एनआर-20978डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 मेजर मंजु जी नाथ (एनआर-20980एन), 21 अगस्त 2010  
 मेजर रूपा कुमारी (एनआर-20981डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सरिता बी नायर (एनआर-20982वाई), 21 अगस्त 2010  
 मेजर श्रीकला टी डी (एनआर-20984के), 21 अगस्त 2010  
 मेजर प्रवीन कुमारी शर्मा (एनआर-20985एम), 21 अगस्त 2010  
 मेजर अन्जू कुमारी (एनआर-20991ए), 21 अगस्त 2010  
 मेजर उषा के (एनआर-20993एल), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सीमा देवी राठौर (एनआर-20994एन), 21 अगस्त 2010

मेजर कविता कुमारी (एनआर-21002वाई), 21 अगस्त 2010  
 मेजर अर्चना गुप्ता (एनएस-20919के), 21 अगस्त 2010  
 मेजर प्रिया आई पी (एनएस-20935एफ), 21 अगस्त 2010  
 मेजर टी पी अम्बिका (एनएस-20979वाई), 21 अगस्त 2010  
 मेजर अम्बिली टी एस (एनएस-20990एक्स), 21 अगस्त 2010  
 मेजर मीरा कुमारी एस (एनएस-20992एच), 21 अगस्त 2010  
 मेजर सरिता जैन (एनएस-20995डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 मेजर कुमारी रश्मि (एनएस-20996वाई), 21 अगस्त 2010

जे के ग्रेवाल  
 मेजर जनरल  
 अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस

#### सेना शाखा

सं. 491, दिनांक 29 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

#### लेफ्टि से कप्तान

आईसी सं., नाम तथा आर्म

(आईसी-75233) कपगटे सचिन किसान, ईएमई

(आईसी-75234) भागवत रोहित राजन, आर्टी

(आईसी-75235) संदीप धवन, इंजीनियर्स

(आईसी-75236) अरुण कुमार, ईएमई

(आईसी-75237) रमनदीप सिंह, ईएमई

(आईसी-75238) सौरभ जोशी, इंजीनियर्स

(आईसी-75239) अभिमन्यु सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-75240) विवेक कुमार पाण्डे, इंजीनियर्स

(आईसी-75241) पिल्लै फ्रैंकलिन विलियम, इंजीनियर्स

(आईसी-75242) पुनीत शर्मा, एएडी

(आईसी-75243) प्रमोद कुमार दूबे, इंजीनियर्स

(आईसी-75244) राजेश राणा, इंजीनियर्स

(आईसी-75245) जसवन्त सिंह ठाकुर, इंजीनियर्स

(आईसी-75246) आनन्द सिहाग, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75247) बिक्रमजीत सिंह शाहिद, ईएमई

(आईसी-75248) करन पनवार, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75249) देवेन्द्र सिंह, एसी  
 (आईसी-75250) गुरविक्रम सिंह सरना, ईएमई  
 (आईसी-75251) अजय सलारिया, सिग्नल्स  
 (आईसी-75252) हरपाल सिंह, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75253) अभिमन्यु जोशी, ईएमई  
 (आईसी-75254) दिनेश वी नायक, ईएमई  
 (आईसी-75255) भावेश कुमार, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75256) चन्दन सोबती, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75257) सरत चन्दा सुसरापू, ईएमई  
 (आईसी-75258) सर्वेश कुमार स्वर्णकार, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75259) करमिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75260) आशीष दलाल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75261) मनदीप सिंह दिलावरी, सिग्नल्स  
 (आईसी-75262) विक्रम अर्नेस्ट पवार, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75263) अभिषेक मिश्रा, ईएमई  
 (आईसी-75264) रविन्द्र कुमार, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75265) बकोरे समीर प्रदीप, सिग्नल्स  
 (आईसी-75266) अशित कुमार राणा, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75267) अभिजीत मोहापात्रा, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75268) अग्रवाल आकाश सुशील, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75269) अभिषेक अग्रवाल, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75270) आशीष नेगी, ईएमई  
 (आईसी-75271) अरुण एस नायर, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75272) देशमुख उपेन्द्र दीपक, आर्टी  
 (आईसी-75273) कसाराबाद रवितेजा, आर्टी  
 (आईसी-75274) नगारकर करण नितिन, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75275) विश्वनाथ वी एस, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75276) अनुभव सिन्हा, सिग्नल्स  
 (आईसी-75277) सुमित कुमार तिवारी, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75278) श्याम के एम, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75279) राहुल बारेजा, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75280) कार्तिक राजकुमार ए, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75281) अरुण कुमार मिश्रा, इंजीनियर्स

(आईसी-75282) सौरभ गर्ग, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75283) करन सिंह, ईएमई  
 (आईसी-75284) मोहम्मद अयूब सूबेदार, ईएमई  
 (आईसी-75285) राहुल व्यास, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75286) शुक्ला सुधान्त, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75287) रिषभ बाजपेयी, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75288) अर्जुन सूद, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75289) राहुल नायर, ईएमई  
 (आईसी-75290) मृणाल अग्रवाल, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75291) शिवानन्द सी हिप्पारागी, ईएमई  
 (आईसी-75292) चिन्मय नायर, सिग्नल्स  
 (आईसी-75293) निपुन सिरौही, ईएमई  
 (आईसी-75294) रिपुदमन सिंह, ईएमई

--14 दिसम्बर 2010

आईसी सं., नाम, आर्म व कप्तान दिनांक से  
 (आईसी-55966) रोहित गुरुंग, एसी, 07 नवम्बर 2002  
 (आईसी-66621) जोनाथन एलेक्सजेन्डर, इन्फैन्ट्री, 17 अप्रैल 2008  
 (आईसी-71220) अजय राज सिंह चौहान, एमएफ, 13 दिसम्बर 2010

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (मैन)

ले से कप्तान

एसएस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि व कप्तान दिनांक से  
 (एसएस-44224) अभिराज त्यागी, सिग्नल्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010  
 (एसएस-44225) गणेश भण्डारी, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010  
 (एसएस-44226) संतोष कुमार यादव, आर्टी, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010  
 (एसएस-44227) टिजो जोसफ, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010  
 (एसएस-44228) अदित्य डोगरा, ईएमई, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010  
 (एसएस-44229) राहुल कुमार वर्मा, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010



(एसएस-44230) वरूण गुप्ता, इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44232) अनिल कुमार राठी, इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44233) एन आनंद राज, इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44234) कुणाल सिंह, ईएमई, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44236) राहुल खेर, सिग्नल्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44237) आशीष श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44240) ईशान शर्मा, ईएमई, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44243) राम मोहन शर्मा, इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44245) सिमरप्रीत सिंह सहगल, एससी, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44246) संदीप कुमार पाण्डेय, इन्ट, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44249) मिथलेश कुमार सिंह, ई एम ई, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44250) बुबई कुमार बिश्वास, इंजि., 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44251) राजेन्द्र कुमार सिंह, एओसी, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44252) शमशेर, एसी, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44254) ऋषभ श्रीवास्तव, सिग्नल्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44256) आशीष कुमार द्विवेदी, सिग्नल्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44257) हरप्रीत सिंह, आर्टी, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44259) प्रतीक ओक, इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44263) संजय कुमार, इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44265) श्रेयस शर्मा, सिग्नल्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44266) नितिन वर्मा, ईएमई, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44267) अरूण श्रीधरन, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44268) रौबिन भारद्वाज, इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44269) दिव्यजीत सिंह जमवाल, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44270) रवि शर्मा, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44272) गगनप्रीत सिंह, आर्टी, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44273) सुशील कुमार चाहर, ईएमई, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44274) सुमित सगोत्रा, सिग्नल्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44275) अनुराज टी वी, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44277) निकांत रथ, एसी, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44278) विनायक अलियास लक्ष्मण पाटिल, आर्टी, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44279) मयंक भारद्वाज, इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44281) विक्रम चंद्र गौड पाटिल, ईएमई, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44282) अरूण गांधी एन, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44283) वरूण शर्मा, मेक, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44285) रोहित कुमार यादव, सिग्नल्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44286) कलैवाणन डी, सिग्नल्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44287) राकेश रंजन साहु, एएडी, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44288) गोविन्दा प्रसाद, आर्टी, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44290) निशिथ भारद्वाज, ईएमई, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44292) बेसिल जॉन, इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44293) विवेक वर्मा, ईएमई, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44295) राजन बंगर, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44296) ऋषि कटियार, इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44297) अर्पित मेहरोत्रा, इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44298) राहुल शर्मा, एससी, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

(एसएस-44301) अब्दुल हमीद, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008, एसएससी-33(टी), 21 अक्टूबर 2008/21 अक्टूबर 2010

प्रभात रॉस  
उप निदेशक  
एम एस 8सी

थल सेना विभाग

सं. 492, तारीख 30 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

4-जी आर

नियमित सेना इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दल बहादुर गुरूंग (सं. 5346353एम अब जेसी-612846एल), 01 जनवरी 2011

हवलदार नर बहादुर पुन (सं. 5346362एम अब जेसी-612847एन), 01 जनवरी 2011

हवलदार बिशन थापा (सं. 5346400वाई अब जेसी-612848डब्ल्यू), 04 दिसम्बर 2010

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2010)

हवलदार ज्ञानेन्द्र बलाल (सं. 5346959डब्ल्यू अब जेसी-612849वाई), 15 मार्च 2011

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 17 फरवरी 2011)

हवलदार समशेर बहादुर थापा (सं. 5346363डब्ल्यू अब जेसी-612850एन), 01 मार्च 2011

हवलदार गमबीर सिंह गुरूंग (सं. 5044417पी अब जेसी-612851डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

हवलदार दल बहादुर थापा (सं. 5346375एल अब जेसी-612852वाई), 01 अप्रैल 2011

हवलदार अनिल कुमार श्रेष्ठा (सं. 5346669वाई अब जेसी-612853एफ), 01 अप्रैल 2011

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 24 मार्च 2011)

हवलदार स्याम सुन्दर थापा (सं. 5346568एल अब जेसी-612854के), 26 अप्रैल 2011

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2011)

हवलदार सुदान थापा (सं. 5346834वाई अब जेसी-612855एम), 23 अप्रैल 2011

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 04 अप्रैल 2011)

हवलदार बीर बहादुर गुरूंग (सं. 5346434एम अब जेसी-612856पी), 01 मई 2011

5 जीआर (एफ एफ)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार टिका राम थापा (सं. 5450787वाई अब जेसी-618039एम), 06 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार भिम बहादुर थापा (सं. 5451569एम अब जेसी-618040एफ), 01 फरवरी 2011

हवलदार मन बहादुर गुरूंग (सं. 5450755डब्ल्यू अब जेसी-618041के), 01 फरवरी 2011

हवलदार फत्ता बहादुर राना (सं. 5450759एम अब जेसी-618042एम), 01 फरवरी 2011

हवलदार दुर्गा बहादुर गुरूंग (सं. 5450761के अब जेसी-618043पी), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) और नायब सूबेदार (आरटी) के रैंक में

रेक्रूट (आरटी) चन्डी प्रासाद भट्ट (सं. 618013एक्स अब जेसी-618013एक्स), 19 फरवरी 2011

हवलदार केश बहादुर तिलिजा पुन (सं. 5450769डब्ल्यू अब जेसी-618049डब्ल्यू), 27 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मार्च 2011 से दी जाएगी)

हवलदार बल बहादुर थापा (सं. 5450836डब्ल्यू अब जेसी-618050एल), 01 अप्रैल 2011

हवलदार भिम बहादुर पुन (सं. 5450979डब्ल्यू अब जेसी-618051एन),  
01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी) और नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में  
हवलदार गुम बहादुर थापा (सं. 5451001एन अब जेसी-618044एक्स),  
11 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 फरवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार भद्रा बहादुर घाले (सं. 5450635एक्स अब जेसी-618045ए),  
01 मार्च 2011

हवलदार/लिपिक जवेद अखतार (सं. 4184169एल अब जेसी-  
618046एच), 01 अप्रैल 2011

हवलदार मिन बहादुर थापा (सं. 5450767एल अब जेसी-618047एल),  
01 मार्च 2011

हवलदार भुवन थापा (सं. 5450765ए अब जेसी-618048एन),  
01 मार्च 2011

हवलदार पदम बहादुर घाले (सं. 5451022के अब जेसी-618034एन),  
19 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार/लिपिक अम्रिक सिंह (सं. 5451055पी अब जेसी-  
618035डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

हवलदार मन बहादुर मशरैन (सं. 5450660डब्ल्यू अब जेसी-  
618036वाई), 20 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार गंगा बहादुर गुरूंग (सं. 5450680के अब जेसी-618037एफ),  
20 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार तेज बहादुर थापा (सं. 5451011एक्स अब जेसी-618038के),  
20 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

8 जी आर

नायब सूबेदार (लिपिक)/जीडी के रैंक में

हवलदार विनेश कुमार कार्की (सं. 5752283एच अब जेसी-  
623958एल), 15 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार/लिपिक घनश्याम मिश्रा (सं. 5752644डब्ल्यू अब  
जेसी-623957एच), 01 मार्च 2011

हवलदार/लिपिक बेनुधर पथारी (सं. 6389811एफ अब जेसी-  
623959एन), 01 अप्रैल 2011

हवलदार शिवा शंकर (सं. 5752218एच अब जेसी-623960एच),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार प्रेम बहादुर (सं. 13617503वाई अब जेसी-623961एल),  
01 अप्रैल 2011

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार रोमेश सिंह (सं. 13752442ए अब जेसी-581240एक्स),  
16 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार केवल कुमार (सं. 13752444एल अब जेसी-581241ए),  
16 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 13752446डब्ल्यू अब जेसी-581242एच),  
16 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार रणधीर सिंह (सं. 13752488एच अब जेसी-581243एल),  
16 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार राम सिंह (सं. 13751577पी अब जेसी-581244एन),  
02 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार नर बहादुर थापा (सं. 13751082एच अब जेसी-  
581245डब्ल्यू), 28 फरवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार जुगल किशोर शर्मा (सं. 13752988ए अब जेसी-  
581246वाई), 21 फरवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार रवि कुमार (सं. 13754023एफ अब जेसी-581247एफ),  
25 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 18 फरवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार दिवान चन्द ठाकुर (सं. 13752770एन अब जेसी-  
581248के), 01 मार्च 2011

कुमार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार उदमी राम यादव (सं. 4181928पी अब जेसी-540912के),  
23 फरवरी 2011/01 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी गई है)

हवलदार हेम चन्द्रा पाण्डेय (सं. 4183066ए अब जेसी-540913एम),  
05 मार्च 2011/01 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी गई है)

हवलदार राजेन्द्र सिंह सुपयाल (सं. 4181875एफ अब जेसी-  
540914पी), 01 मार्च 2011/01 फरवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी गई है)

हवलदार कुन्दन सिंह (सं. 4180990पी अब जेसी-540915एक्स),  
01 मार्च 2011/01 फरवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी गई है)

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 4183729ए अब जेसी-540916ए), 04  
मार्च 2011/01 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी गई है)

हवलदार हरेन्द्र सिंह (सं. 4181663डब्ल्यू अब जेसी-540917एच),  
26 फरवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी गई है)

हवलदार नरेन्द्र सिंह चौहान (सं. 4183160के अब जेसी-540918एल),  
01 मार्च 2011

हवलदार शंकर लाल यादव (सं. 4182366पी अब जेसी-540919एन),  
01 मार्च 2011

हवलदार अद राम यादव (सं. 4184238डब्ल्यू अब जेसी-540920एच),  
07 अप्रैल 2011/01 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी गई है)

हवलदार सुन्दर लाल यादव (सं. 4183592वाई अब जेसी-  
540921एल), 01 अप्रैल 2011

हवलदार त्रिलोक चन्द्रा (सं. 4182188एक्स अब जेसी-540922एन),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार अशोक कुमार (सं. 4183550एम अब जेसी-540923डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार सुरेश चन्द्रा कापडी (सं. 4181215के अब जेसी-540924वाई),  
01 अप्रैल 2011

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (आरटी) के रैंक में

रिक्रूट (आरटी) संजीव कुमार त्रिपाठी (सं. 560524एन अब जेसी-  
560524एन), 19 फरवरी 2011

रिक्रूट (आरटी) धमेन्द्र द्विवेदी (सं. 560525डब्ल्यू अब जेसी-  
560518डब्ल्यू), 19 फरवरी 2011

रिक्रूट (आरटी) संजय कुमार पाण्डेय (सं. 560526वाई अब जेसी-  
560526वाई), 19 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार यकूब लकरा (सं. 4268248एल अब जेसी-560517एक्स),  
22 फरवरी 2011/01 अक्टूबर 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार गछन मूर्मू (सं. 4266240ए अब जेसी-560518ए), 16 फरवरी  
2011/10 अक्टूबर 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 10 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुबन बरला (सं. 4269053एम अब जेसी-560519एच),  
16 फरवरी 2011/01 नवम्बर 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार बिनोद कुमार गुप्ता (सं. 4269178के अब जेसी-560520के),  
22 फरवरी 2011/12 दिसम्बर 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 12 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर अजया कुमार (सं. 42767337एक्स अब  
जेसी-560521ए), 01 फरवरी 2011/01 जनवरी 2011 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार शिव नारायण सिंह (सं. 4267073एफ अब जेसी-560522एच),  
05 मार्च 2011/15 जनवरी 2011 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 15 जनवरी 2011 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर हरेन्द्र ठाकुर (सं. 4266542एम अब जेसी-560523एल), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार धनंजय कुमार पाण्डेय (सं. 4270302एम अब जेसी-560527एफ), 11 फरवरी 2011/11 अक्टूबर 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार असेश कुमार गोच्छायत (सं. 4269570के अब जेसी-560528के), 01 मार्च 2011/07 नवम्बर 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुर्जन लोहार (सं. 4273430एफ अब जेसी-560529एम), 10 मार्च 2011/01 मार्च 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार रविन्द्र कुमार चौधरी (सं. 4268813एक्स अब जेसी-560530एफ), 08 मार्च 2011/01 मार्च 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

#### सिख रेजिमेन्ट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बचन सिंह (सं. 3390746डब्ल्यू अब जेसी-500320एक्स), 03 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जनवरी 2011)

हवलदार जोध सिंह (सं. 3390362एफ अब जेसी-500321ए), 27 फरवरी 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जनवरी 2011)

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 3389710एल अब जेसी-500322एच), 01 मार्च 2011

हवलदार चरत सिंह (सं. 3391652एल अब जेसी 500323एल), 04 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011)

हवलदार अजीत सिंह (सं. 3388856एम अब जेसी-500324एन), 25 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011)

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 3392467के अब जेसी-500325डब्ल्यू), 12 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011)

हवलदार कुलवंत सिंह (सं. 3391107एफ अब जेसी-500326वाई), 01 मार्च 2011

हवलदार चरत सिंह (सं. 3389958पी अब जेसी- 500327एफ), 01 अप्रैल 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010)

हवलदार लुखवीर सिंह (सं. 3387934एम अब जेसी -500328के), 26 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011)

हवलदार जसवंत सिंह (सं. 3387941एच अब जेसी-500329एम), 01 अप्रैल 2011

##### नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक वचन सिंह (सं. 3391545के अब जेसी-500330एफ), 01 अप्रैल 2011

हवलदार/लिपिक रविन्दर सिंह (सं. 3391551एक्स अब जेसी-500331के), 01 अप्रैल 2011

हवलदार/लिपिक नंद किशोर पाठक (सं. 3391557वाई अब जेसी-500332एम), 01 अप्रैल 2011

हवलदार/लिपिक ठाकुर सिंह (सं. 3391559के अब जेसी-500333पी), 01 अप्रैल 2011

हवलदार/लिपिक उमा शंकर चौधरी (सं. 3391634एच अब जेसी-500334एक्स), 04 अप्रैल 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011)

हवलदार/लिपिक बलवीर सिंह (सं. 3391635एल अब जेसी-500335ए), 01 अप्रैल 2011

हवलदार/लिपिक दिनेश कुमार (सं. 2887694एम अब जेसी-500336एच), 03 अप्रैल 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011)

## जाट रेजिमेन्ट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महावीर प्रसाद यादव (सं. 3183791डब्ल्यू अब जेसी- 490682एच), 07 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार महीपाल सिंह सोलंकी (सं. 3184215वाई अब जेसी-490683एल), 01 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार भंवर सिंह नेहरा (सं. 3183902एच अब जेसी-490684एन), 07 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार हरि सिंह (सं. 3183169एच अब जेसी-490685डब्ल्यू), 11 मार्च 2011

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 3182220एल अब जेसी-490686वाई), 16 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार नेमी चन्द खालिया (सं. 3183183पी अब जेसी-490687एफ), 25 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 3183186एच अब जेसी-490688के), 01 अप्रैल 2011

हवलदार मूल चन्द (सं. 3182629एम अब जेसी-490689एम), 01 अप्रैल 2011

हवलदार जीतेन्द्र सिंह (सं. 3182001के अब जेसी-490690एफ), 08 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार शेर सिंह (सं. 3182174एफ अब जेसी-490691के), 01 अप्रैल 2011

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 3183989पी अब जेसी-490692एम), 01 मई 2011

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) भरत सिंह (सं. 3182161के अब जेसी-490693पी), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (लिपिक) ओडेडरा केशव विरम (सं. 3180120एफ अब जेसी-490694एक्स), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (लिपिक) रामचन्द्र (सं. 15361944एच अब जेसी-490695ए), 01 मई 2011

## सिख लाईट इन्फैन्ट्री

## नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 4469145एच अब जेसी-510037एक्स), 12 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार जगविन्दर सिंह (सं. 4467156डब्ल्यू अब जेसी-510038ए), 15 जनवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार आत्मा सिंह (सं. 4469919ए अब जेसी-510039एच), 18 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 4469213एल अब जेसी-510040एक्स), 18 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार हुकम सिंह (सं. 4468584एफ अब जेसी-510041ए), 24 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 4467696पी अब जेसी-510042एच), 04 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार निरमल सिंह (सं. 4467717ए अब जेसी-510043एल), 09 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रूप सिंह (सं. 4468979एच अब जेसी-510044एन),  
17 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 4470051एक्स अब जेसी-  
510045डब्ल्यू), 15 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार मखन सिंह (सं. 4467695एम अब  
जेसी-510046वाई), 04 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार हरनेक सिंह (सं. 4469752एफ अब जेसी-  
510047एफ), 07 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 14 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार नथा सिंह (सं. 4472563एच अब जेसी-510048के),  
18 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 31 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4469306ए अब  
जेसी-510049एम), 09 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 03 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार लाल सिंह (सं. 4469401एम अब  
जेसी-510050एफ), 29 जनवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 03 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4469620एन अब जेसी-  
510051के), 12 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 03 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार कुलविन्दर सिंह (सं. 4472428पी अब  
जेसी-510052एम), 01 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार जसवीर सिंह (सं. 4470116ए अब जेसी-510053पी),  
25 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 11 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सरवजीत सिंह (सं. 4471954एफ अब जेसी-  
510054एक्स), 07 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 17 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार मलकीयत सिंह (सं. 4468066एफ अब जेसी-  
510055ए), 02 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 22 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4470796एल अब जेसी-  
510056एच), 25 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 4469654एफ अब जेसी-  
510057एल), 10 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

हवलदार/क्लर्क राम दयाल यादव (सं. 4468937डब्ल्यू अब  
जेसी-510035एम), 06 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों  
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार/क्लर्क सीता राम चोपड़ा (सं. 4468939एफ अब  
जेसी- 510036पी), 01 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों  
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार/क्लर्क देशमुख अरविन्द शिवाजी (सं. 4468978ए  
अब जेसी-510058एन), 01 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों  
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार अमरित सिंह (सं. 4468363पी अब जेसी-  
510059डब्ल्यू), 30 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 4472383ए अब जेसी-510060एल), 22 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार चरणजीत सिंह (सं. 4468165के अब जेसी-510061एन), 12 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सुभाश सिंह (सं. 4470740वाई अब जेसी-510062डब्ल्यू), 09 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार हरदीप सिंह (सं. 4470069एन अब जेसी-510063वाई), 10 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 4470103एच अब जेसी-510064एफ), 24 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार केवल सिंह (सं. 4468102एफ अब जेसी-510066एम), 07 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 4470515के अब जेसी-510067पी), 24 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार जीवा सिंह (सं. 4470388ए अब जेसी-510068एक्स), 23 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार जगसीर सिंह (सं. 4472333पी अब जेसी-510069ए), 07 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार गुरमैल सिंह (सं. 4470949के अब जेसी-510070पी), 07 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सवर्न सिंह (सं. 4468484डब्ल्यू अब जेसी-510072ए), 01 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार बचित्तर सिंह (सं. 4471715एम अब जेसी-510073एच), 13 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार हरमैल सिंह (सं. 4467697एक्स अब जेसी-510074एल), 01 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार जगशीर सिंह (सं. 4467862एक्स अब जेसी-510075एन), 01 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार लखबीर सिंह (सं. 4467863ए अब जेसी-510076डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार मनजिन्दर सिंह (सं. 4468226डब्ल्यू अब जेसी-510077वाई), 01 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार नच्चत्तर सिंह (सं. 4468171एक्स अब जेसी-510078एफ), 07 अप्रैल 2011\*

\*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क) एसडी के रैंक में

हवलदार/क्लर्क सुरजया नारायण पानीगराही (सं. 4468993पी अब जेसी-510065के), 14 मार्च 2011\*



\*(नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार/क्लर्क सत्या प्रकाश सिंह (सं. 4467203एच अब जेसी- 510071एक्स), 01 अप्रैल 2011 \*

\*(नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

गढ़वाल राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 4069923पी अब जेसी-530970ए), 24 फरवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 4072998एक्स अब जेसी-530971एच), 28 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 फरवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 4069818वाई अब जेसी-530976एफ), 05 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार जगजीत सिंह (सं. 4069821वाई अब जेसी-530977के), 05 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार डलबीर सिंह (सं. 4069827ए अब जेसी-530978एम), 25 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार करमा नन्द ऊनियाल (सं. 2884443एक्स अब जेसी-530979पी), 01 मार्च 2011

हवलदार राकेश चन्द्र (सं. 4069677पी अब जेसी-530980के), 11 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार बीरेन्द्र सिंह (सं. 4070296ए अब जेसी-530981एम), 01 मार्च 2011

हवलदार सत्यपाल सिंह (सं. 4070497वाई अब जेसी-530982पी), 01 मार्च 2011

5—304 GI/2011

हवलदार नेत्रा सिंह कन्धारी (सं. 4070482डब्ल्यू अब जेसी-530983एक्स), 01 मार्च 2011

हवलदार अरून कुमार (सं. 4070619एक्स अब जेसी-530984ए), 01 मार्च 2011

हवलदार बीरेन्द्र सिंह भण्डारी (सं. 4073248एल अब जेसी-530985एच), 01 अप्रैल 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 4072379के अब जेसी-530986एल), 01 अप्रैल 2011

हवलदार केशर सिंह (सं. 3391464के अब जेसी-530987एन), 07 अप्रैल 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार गबर सिंह (सं. 4070045डब्ल्यू अब जेसी-530988डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार गंगा सिंह (सं. 4070635पी अब जेसी-530989वाई), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) अनिल कुमार वी (सं. 4070743वाई अब जेसी-530969एल), 01 मार्च 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार (क्लर्क) अनिल कुमार महाराज (सं. 4071081एन अब जेसी-530972एल), 01 मार्च 2011

हवलदार (क्लर्क) शरवण कुमार (सं. 4071703के अब जेसी-530973एन), 01 मार्च 2011

हवलदार (क्लर्क) पदमानाभन चेनीचेरी (सं. 4071910डब्ल्यू अब जेसी-530974डब्ल्यू), 01 मार्च 2011

हवलदार (क्लर्क) वरेन्द्र सिंह (सं. 4069792पी अब जेसी-530975वाई), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 4069897वाई अब जेसी-530939एल), 01 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार दिनेश चन्द्र गौरोला (सं. 4070851एच अब जेसी-530940एच),  
08 फरवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार इन्द्र सिंह रावत (सं. 3391417एम अब जेसी-530941एल),  
10 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र सिंह रावत (सं. 4070363ए अब जेसी-530942एन),  
19 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार देवेन्द्र कुमार (सं. 4070197एक्स अब जेसी-530943डब्ल्यू),  
16 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार भंगू सिंह (सं. 4071665वाई अब जेसी-530944वाई),  
10 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार गबर सिंह (सं. 4072554एन अब जेसी-530945एफ),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार धरम दत्त (सं. 4070192वाई अब जेसी-530946के),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार प्रबल सिंह नेगी (सं. 4069867एफ अब जेसी-530947एम),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 4070145एफ अब जेसी-530948पी),  
26 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 4071853ए अब जेसी-530949एक्स),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार दर्मियान सिंह (सं. 4071763वाई अब जेसी-530950एम),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार मेल सिंह (सं. 4070150एम अब जेसी-530951पी), 08 दिसम्बर  
2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 4070212एफ अब जेसी-530952एक्स),  
16 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार धिरेन्द्र सिंह (सं. 4070270एल अब जेसी-530953ए), 20 जनवरी  
2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अतुल सिंह (सं. 4069889ए अब जेसी-530954एच),  
01 जनवरी 2011

हवलदार मदन मोहन सिंह (सं. 4068931एफ अब जेसी-530955एल),  
13 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार राम कृष्ण (सं. 4070071एक्स अब जेसी-530956एन),  
01 जनवरी 2011

हवलदार हरी प्रसाद (सं. 4069176पी अब जेसी-530957डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2011

हवलदार श्याम सिंह (सं. 4069635वाई अब जेसी-530958वाई),  
01 जनवरी 2011

हवलदार सुरेश चन्द्र सिंह (सं. 4070326एम अब जेसी-530959एफ),  
01 जनवरी 2011

हवलदार उमेश चन्द्र (सं. 4070442पी अब जेसी-530960डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2011

हवलदार अतुल सिंह (सं. 4070268एन अब जेसी-5309961वाई),  
08 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 4070285एन अब जेसी-530962एफ),  
06 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार रमेश प्रसाद उनियाल (सं. 2884271एन अब जेसी-530963के),  
12 जनवरी 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 03 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार भरत सिंह (सं. 4068988डब्ल्यू अब जेसी-530964एम),  
01 फरवरी 2011

हवलदार नारायण सिंह रावत (सं. 4070080वाई अब जेसी-530965पी), 01 फरवरी 2011

हवलदार जगमोहन सिंह (सं. 4070083एम अब जेसी-530966एक्स), 01 फरवरी 2011

हवलदार भूपेन्द्र सिंह पटवाल (सं. 4070431एच अब जेसी-530967ए), 01 फरवरी 2011

हवलदार भगवान सिंह (सं. 4069596पी अब जेसी-530968एच), 02 फरवरी 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कबाडि रामचंद्र पोपट (सं. 2789983एल अब जेसी-460349पी), 20 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार कदम राजेश. तात्याबा (सं. 2787851वाई अब जेसी-460350के), 18 अक्टूबर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार भांडे हनुमंत नामदेव (सं. 2790991डब्ल्यू अब जेसी-460351एम), 19 मार्च 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार भापकर बापु विठ्ठल (सं. 2789438एफ अब जेसी-460352पी), 27 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार आप्पा देसाई (सं. 2789454वाई अब जेसी-460353एक्स), 07 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार दांडेकर काकासाहेब बाबुराव (सं. 2786762एन अब जेसी-460354ए), 04 अप्रैल 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार कुमार पुंडलीक जोगी (सं. 2786405एल अब जेसी-460355एच), 08 मार्च 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार पाटील संजय राजाराम (सं. 2790007एफ अब जेसी-460356एल), 14 फरवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार वेंकटेश एस जी (सं. 2786685के अब जेसी-460357एन), 29 मार्च 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार माहादेव जानू पाटील (सं. 2785498वाई अब जेसी-460358डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार गवस संतोश फटू (सं. 2789548डब्ल्यू अब जेसी-460359वाई), 02 मार्च 2011.

हवलदार वाकले प्रदीप नामदेव (सं. 2788276पी अब जेसी-460360एन), 07 अप्रैल 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार नानावरे अजीनाथ महादेव (सं. 2790029ए अब जेसी-460361डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

एस अशरफ  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 493, दिनांक 30 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

विशेष सूची

कवचित कोर

स्थाई रिसालदार धर्मशिक्षक के रैंक में

नायब रिसालदार (पंडित) रामा नंद शुक्ला (जेसी-237914एल), 16 दिसम्बर 2009\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार (ग्रंथी) सुखविंदर सिंह (जेसी-297127एन), 01 मई 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार (पंडित) ब्रजेश तिवारी (जेसी-238418डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2010

नायब रिसालदार (पंडित) विजय कुमार मिश्रा (जेसी-238417एन),  
10 मई 2011 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार (पंडित) राधे श्याम तिवारी (जेसी-238501एन),  
06 मई 2011 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार (पंडित) अरविंद कुमार तिवारी (जेसी-238503वाई),  
15 जून 2011 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार (पंडित) राजेश कुमार मिश्रा (जेसी-238502डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2011

स्थायी नायब रिसालदार धर्मशिक्षक के रैंक में

नीरज मिश्रा (जेसी-243730एच), 14 नवम्बर 2009

हरजीत सिंह (जेसी-244670एल), 19 फरवरी 2011

आशुतोष कुमार राय (जेसी-244702एच), 19 फरवरी 2011

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार भूरी सिंह (सं. 15461387के अब जेसी-245081एफ), 12 मार्च  
2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 07 फरवरी 2011 से दी जाती है)

दफादार कुलदीप सिंह (सं. 15464088डब्ल्यू अब जेसी-245094वाई),  
01 अप्रैल 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 22 मार्च 2011 से दी जाती है)

दफादार बाबू सिंह (सं. 15461110एल अब जेसी-245128एफ),  
28 अप्रैल 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 12 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

दफादार विजय कुमार (सं. 1099547वाई अब जेसी-245142एन),  
26 अप्रैल 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

दफादार बीरपाल सिंह (सं. 15461969के अब जेसी-245168एच),  
01 जून 2011

दफादार जया प्रकाश एम (सं. 15461251ए अब जेसी-245184ए),  
07 जून 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार कुलदीप सिंह (सं. 15462121के अब जेसी-245200एम),  
22 जून 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 26 मई 2011 से दी जाती है)

दफादार मोहिन्द्र सिंह (सं. 1089710ए अब जेसी-245211वाई)  
07 जून 2011

दफादार अमनप्रीत सिंह (सं. 15463832डब्ल्यू अब जेसी-245212एफ),  
13 जून 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 07 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार रनबीर सिंह (सं. 15461751एक्स अब जेसी-245220ए),  
20 जून 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 15 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार अनिल दत्त शर्मा (सं. 15462268ए अब जेसी-245227के),  
24 जून 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 16 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार काशीनाथा नायक (सं. 15480975एम अब जेसी-245236एल),  
21 मई 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार कप्तान सिंह (सं. 1089924डब्ल्यू अब जेसी-244852वाई),  
14 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरसाहिब सिंह (सं. 15466377के अब जेसी-245191डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 21 मई 2011 से दी जाती है)

दफादार मुनेश्वर सिंह (सं. 15463420पी अब जेसी-245231एम),  
01 जुलाई 2011

दफादार अशोक कुमार परमार (सं. 15463672एफ अब  
जेसी-245197एक्स), 01 जुलाई 2011 \*

दफादार अरविन्द कुमार सिंह (सं. 15461479डब्ल्यू अब  
जेसी-245198ए), 01 जुलाई 2011

दफादार धिरेन्द्र कुमार (सं. 15463209ए अब जेसी-245214एम),  
04 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार धिरेन्द्र कुमार (सं. 15463233डब्ल्यू अब जेसी-245215पी),  
04 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार उमेश कुमार त्रिपाठी (सं. 15462573एम अब  
जेसी-245230के), 05 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार सकती कांता साहू (सं. 1099768एल अब  
जेसी-245233एक्स), 04 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार कुलबीर सिंह (सं. 15464031एफ अब जेसी-245232पी),  
04 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार मंगल सिंह शेखावत (सं. 15462288एल अब  
जेसी-245238डब्ल्यू), 02 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 25 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार रिचवपाल सिंह (सं. 15462840एच अब जेसी-245239वाई),  
02 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 25 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र सिंह भैसोरा (सं. 15464298डब्ल्यू अब  
जेसी-245240एन), 02 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 25 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार गुरप्रीत सिंह (सं. 15462541के अब जेसी-245241डब्ल्यू),  
06 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र एम सी (सं. 15461446एल अब जेसी-245244के),  
04 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार महाजन ज्ञानेश्वर टी (सं. 1098601पी अब  
जेसी-245249एच), 11 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार ए पी मधुसुदान्न (सं. 1098874एक्स अब  
जेसी-245250एक्स), 06 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार हरदीप सिंह (सं. 15462310एल अब जेसी-245251ए),  
05 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार विनय कुमार सिंह (सं. 15461921डब्ल्यू अब  
जेसी-245131एफ), 04 जुलाई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार प्रेम सिंह (सं. 1089469वाई अब जेसी-245132के), 01 जून  
2011\*

दफादार दिलबाग सिंह (सं. 15461756डब्ल्यू अब जेसी-245138एल),  
20 मई 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

दफादार राकेश कुमार (सं. 15467435पी अब जेसी-245174डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2011

दफादार पुनम कुमार (सं. 15467765एल अब जेसी-245177वाई),  
01 जुलाई 2011

दफादार नारायण सिंह (सं. 15461721ए अब जेसी-245194के),  
01 जून 2011

दफादार लल्लन सिंह (सं. 15461726वाई अब जेसी-245195एम),  
01 जून 2011

दफादार काली किनकर राना (सं. 15463978के अब  
जेसी-245206एन), 04 जून 2011

दफादार चन्द्र शेखर घोष (सं. 1099615एफ अब जेसी-245209एफ),  
01 जुलाई 2011

दफादार संतोष सिंह (सं. 15462253एक्स अब जेसी-245210डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2011

दफादार विजय कुमार (सं. 15463848एफ अब जेसी-245216एक्स),  
25 जून 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार सुधीर कुमार (सं. 15462059एच अब जेसी-245217ए),  
17 जून 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 11 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र सिंह अवलख (सं. 15461886वाई अब  
जेसी-245218एच), 02 जुलाई 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 1099587ए अब जेसी-245228एम),  
01 जुलाई 2011

दफादार कृष्णा लाल (सं. 1099588एच अब जेसी-245229पी),  
05 जुलाई 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार दिपक कुमार सिंह (सं. 15461421वाई अब  
जेसी-245246पी), 01 जुलाई 2011

दफादार सतनाम सिंह (सं. 15461619एक्स अब जेसी-245247एक्स),  
01 जुलाई 2011

दफादार सुरेन्द्र मोहन (सं. 15462333पी अब जेसी-245252एच),  
05 जुलाई 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार ब्रह्म दास (सं. 15464180पी अब जेसी-245261के),  
15 जुलाई 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 09 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार जसपाल सिंह (सं. 15464412एच अब जेसी-245263पी),  
15 जुलाई 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 09 जुलाई 2011 से दी जाती है)

दफादार हेम राज (सं. 1089663एल अब जेसी-245091एल),  
01 जून 2011

दफादार अशोक कुमार शर्मा (सं. 1098651ए अब जेसी-245092एन),  
01 जून 2011

दफादार जसवंत सिंह (सं. 15461664के अब जेसी-245130वाई),  
01 जून 2011

दफादार जयंता भुयान (सं. 1099504के अब जेसी-245144वाई),  
01 जून 2011

दफादार रमेश सिंह (सं. 1099315ए अब जेसी-245149एक्स),  
01 जून 2011

दफादार जगतार सिंह (सं. 15468048एम अब जेसी-245161वाई),  
31 मई 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

दफादार तरसेम सिंह (सं. 15468117एक्स अब जेसी-245162एफ),  
01 जून 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

दफादार गजेन्द्र सिंह टिटो (सं. 15461366एन अब  
जेसी-245164एम), 01 जून 2011

दफादार हरी राम (सं. 15461493एच अब जेसी-245165पी),  
01 जून 2011

दफादार अभीमन्यु सिंह (सं. 15462367एच अब जेसी-245170ए),  
01 जून 2011

दफादार महेश पाल सिंह (सं. 15462616डब्ल्यू अब  
जेसी-245171एच), 01 जून 2011

दफादार पवन कुमार (सं. 15462946पी अब जेसी-245172एल),  
01 जून 2011

दफादार कल्लू सिंह चुंदावत (सं. 15461109डब्ल्यू अब  
जेसी-245173एन), 01 जून 2011

दफादार सतविन्द्र सिंह (सं. 15463168एफ अब जेसी-245179पी),  
01 जून 2011

दफादार देविन्द्र सिंह चन्देल (सं. 15463052एल अब जेसी-245180के),  
30 मई 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

दफादार अजीत कुमार सिंह (सं. 1089626ए अब जेसी-245189वाई),  
01 जून 2011

दफादार भागिरथ (सं. 15464278एच अब जेसी-245190एन),  
30 मई 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 12 मई 2011 से दी जाती है)

दफादार विजय कुमार (सं. 15462005एफ अब जेसी-245199एच),  
31 मई 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 26 मई 2011 से दी जाती है)

दफादार समरथ सिंह (सं. 1099138एल अब जेसी-245204एच),  
02 जून 2011 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 31 मई 2011 से दी जाती है)

दफादार दसरथन ए (सं. 15462336एच अब जेसी-245205एल),  
06 जून 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार दिलदार सिंह (सं. 15468493एल अब जेसी-245207डब्ल्यू),  
10 जून 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 04 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार हरभजन सिंह (सं. 15463310ए अब जेसी-245208वाई),  
13 जून 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 04 जून 2011 से दी जाती है)

दफादार सत्यबिर सिंह (सं. 15464361ए अब जेसी-245213के),  
13 जून 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 09 जून 2011 से दी जाती है)

जे राय चौधरी  
अवर सचिव

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 494, दिनांक 30 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
पदोन्नति करते हैं :--

श्रीमती पी पी नाइक, को हिन्दी अधिकारी, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के  
रूप में डी.आर.डी.ओ. में 14 मार्च 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड  
रु. 15,600--39,100 (पीबी-3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्रीमती जी स्यामला को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित)  
के रूप में डी.आर.डी.ओ. में 04 जनवरी 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड  
रु. 9,300--34,800 (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्रीमती डी सैलजा, को हिन्दी अधिकारी, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप  
में डी.आर.डी.ओ. में 20 दिसम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से पे बैंड  
रु. 15,600--39,100 (पीबी-3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्री हरी राम शर्मा, को हिन्दी अधिकारी, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप  
में डी.आर.डी.ओ. में 14 मार्च 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड  
रु. 15,600--39,100 (पीबी-3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

वी पी सिंह  
उप निदेशक (कार्मिक एए 2)

सं. 495, दिनांक 3 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
पदोन्नति करते हैं :--

उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला (एच.ई.एम.आर.एल.),  
पुणे के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान

के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक  
01 जुलाई 2011 पुवाह्न से।

नाम, पदनाम, पदोन्नति, वेतनमान

श्री/श्रीमती/कुमारी

डॉ. आर. के. पाण्डे, वैज्ञानिक एफ, वैज्ञानिक जी,  
रु. 37,400-67,000+10,000 विशेष वेतन रु. 4,000

डॉ. ए. के. सिकंदर, वैज्ञानिक एफ, वैज्ञानिक जी,  
रु. 37,400-67,000+10,000 विशेष वेतन रु. 4,000

एस. एम. दानाली, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ,  
रु. 37,400-67,000-8,900

डॉ. मेहीलाल, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, रु. 37,400-67,000-  
8,900

डॉ. पी. एस. कुम्हार, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ,  
रु. 37,400-67,000-8,900

अरविन्द कुमार, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, रु. 37,400-  
67,000-8,900

त्रिभुवन नाथ, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, रु. 37,400-67,000-8,900

मनीष, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, रु. 37,400-67,000-8,900

के. एस. टेकम, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक ई, रु. 37,400-67,000-8,700

आर. एस. पालाईया, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक ई, रु. 37,400-  
67,000-8,700

डॉ. जावेद अह्मद, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक ई, रु. 37,400-67,000-8,700

डॉ. जे. के. नायर, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक ई, रु. 37,400-67,000-8,700

डॉ. आर. एस. सतपुड़े, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक ई, रु. 37,400-67,000-8,700

एस. एस. महासे, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक ई, रु. 37,400-67,000-8,700

एस. एस. पुण्डले, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600

पी. पी. वाडे, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600

एम. एम. लवालिकार, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600

एस. एस. पतवारधान, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-3  
9,100-7,600

एन. एच. नाइक, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600

सन्दीप कौर, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600

अनु अबिरमी एस., वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-  
39,100-7,600

पी. एम. देशमुख, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600

सी. एस. पंत, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600

पंकाज वर्मा, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600

डॉ. अनीयाप्पन एम., वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-  
39,100-7,600

एस. आर. गोरे, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600

जी. एस. दोम्बे, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600  
 पी. सी. राव, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600  
 भौमिक देबदास, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600  
 पी. एम. जादव, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600  
 आर. एस. पाटिल, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 15,600-39,100-7,600

हरीश मोहन  
 उप निदेशक (कार्मिक)

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 496, दिनांक 3 अक्टूबर 2011--सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48ए के अधीन श्री मोहन दुबे, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ग्रेड II, डी.आर.डी.औ. मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए दिए गए नोटिस पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार करते हुए 4 अगस्त 2011 (पूर्वाह्न) से उन्हें उनकी सेवा से कार्यमुक्त कर इस कार्यालय की नफरी से हटाया जाता है और इसी तारीख से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित किये जाते हैं।

वी पी सिंह  
 उप निदेशक (कार्मिक)



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th October 2011

## D(MS)/SECTION

No. 486, dated 28th September 2011—The President has made the following appointments on her Principal Honorary/Honorary Personal Staff with effect from 01 Aug 2011 :—

## Principal Honorary Air ADC

Air Chief Marshal NAK Browne, PVSM, AVSM, VM, ADC (13129), F(P)

## Honorary Air ADC

Air Marshal D Kukreja, AVSM, VSM (13130), F(P)

The President has made the following appointment on her Honorary Personal Staff with effect from 01 Sep 2011 :—

## Honorary Air ADC

Air Marshal DC Kumaria, AVSM, VM, VSM (13366), F(P)

R SUNDER  
Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 487, dated 28th September 2011—The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 15/79 as amended and GoI MoD Letter Nos. 10(3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 2005 as amended :—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (on Probation)

Capt Divya (DS-12375L), 16 Apr 2010

Capt Sunny Banga (DS-12361L), 26 Aug 2009

Capt Srinivasa Gowda ST (DS-12368P), 03 Sep 2009

Capt Sudhakar V (DS-12398M), 06 Nov 2010

The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 37/78 as amended and GoI MoD letter Nos. 10(3)(1)/05/D(Med) dated 28th Oct 2005 as amended :—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (on Probation)

Capt Oliver Jacob (DR-10630N), 20 Jun 2009

MAHESH CHANDER  
Maj Gen  
Addl DGDS

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANIZATION

No. 488, dated 28th September 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5,400/-

Name (PIN No.), Estt/Lab, Date of Joining

Sanjeeta Dhegaya (2009AB1127), ARDE, Pune, 03 Jun 2009

V Praveen Kumar (2009AB1081), ANURAG, Hyderabad, 03 Jun 2009

K Somasekhar (2010AB046), CABS, Bangalore, 19 May 2010

Srirama Ranjith Kumar (2010AB1154), CVRDE, Chennai, 19 May 2010

Ramraj Singh (2009AB1679), CFEES, Delhi, 10 Aug 2009

Neethu S (2009AB1452), DEBEL, Bangalore, 03 Jun 2009

Bhukya Shankar Rao (2008AB1311), DLRL, Hyderabad, 21 May 2008

Akhilesh Kumar (2009AB1118), DLRL, Hyderabad, 03 Jun 2009

Pradeep Kumar Kher (2009AB1039), DLRL, Hyderabad, 03 Jun 2009

Hillol Kumar Nandi (2008AB1315), DMRL, Hyderabad, 22 May 2008

Sukumar G (2009AB1387), DMRL, Hyderabad, 15 Dec 2009

Trilochana Jena (2008AB1377), DRDL, Hyderabad, 21 May 2008

Dosala Sridhar (2007AB1102), DRDL, Hyderabad, 23 May 2007

Chinimilla Devendernath (2008AB1354), DRDL, Hyderabad, 21 May 2008

Vikas Kumar Gupta (2009AB1514), DRL, Tezpur, 08 Apr 2009

Sudheendra Nayak (2010AB1168), GTRE, Bangalore, 19 May 2010

Vikas Chandra Yadav (2009AB1249), GTRE, Bangalore, 03 Jun 2009

Vishwakarma Rahul Lalmani (2009AB1009), LRDE, Bangalore, 03 Jun 2009

Rakesh M S (2009AB1225), NPOL, Kochi, 03 Jun 2009

Tanmoy Mohanty (2009AB1446), PXE, Chandipur, 03 Jun 2009

Vikram T (2009AB1375), RCI, Hyderabad, 03 Jun 2009

G R Gautam Reddy (2008AB1512), RCI, Hyderabad, 14 Aug 2008

The President is pleased to make the following appointment :—

Dr. Jayanth Daniel (PIN2010AC1002) to be temporary Scientist(s) 'C' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service, DEBEL, Bangalore on probation for a period of one year with effect from 28 May 2010 in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Rs. 6,600/- (Grade Pay).

V P PANDE  
Associate Dir

#### ARMY BRANCH

No. 489, dated 29th September 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Subs Col (By Time Scale)

(IC-34428Y), Lt Col S B Gurung, Inf, 16 Dec 2004

(IC-45345N), Lt Col R R N R Shinde, AC, 09 Nov 2010

(IC-45352K), Lt Col Rajiv Sachan, JAG Dept, 09 Nov 2010

(IC-45362N), Lt Col A S Dabholkar, Guards, 24 Apr 2011

(IC-45379F), Lt Col Rajiv Punj, Inf, 24 Apr 2011

(IC-45381Y), Lt Col S P Singh, AC, 24 Apr 2011

(IC-45393N), Lt Col Debashis Khan, Arty 24 Apr 2011

(IC-45406A), Lt Col P Mandotra, AC, 24 Apr 2011

(IC-45424H), Lt Col M K Vij, EME, 24 Apr 2011

(V-00385H), Lt Col H K Shrivastava, RVC, 26 Nov 2010

(IC-37041F), Lt Col R S Sangwan, Mech Inf, 16 Dec 2004

(IC-42260M), Lt Col S K Sharma, AEC, 09 Jun 2010

(IC-42604A), Lt Col S K Ahlawat, Arty, 15 Dec 2010

(IC-42762P), Lt Col Omesh Yadav, EME, 08 Jun 2011

(IC-42814A), Lt Col B N Dubey, ASC, 08 Jun 2011

(IC-42815H), Lt Col M K Das, Guards, 08 Jun 2011

(IC-42846H), Lt Col A V R Rao, Inf, 08 Jun 2011

(IC-42883W), Lt Col R S Ratra, Arty, 08 Jun 2011

(IC-42884Y), Lt Col A D Tensingh, Sigs, 08 Jun 2011

(IC-42890M), Lt Col S S Phougat, Guards, 08 Jun 2011

(IC-42918F), Lt Col N K Rai, ASC, 08 Jun 2011

(IC-42927H), Lt Col A Pandey, Sigs, 08 Jun 2011

(IC-42932N), Lt Col J S Dalal, Inf, 08 Jun 2011

(IC-42943A), Lt Col S K Shukla, Inf, 08 Jun 2011

(IC-42944H), Lt Col A S Chahar, Inf, 08 Jun 2011

(IC-42948Y), Lt Col A K Singh, Inf, 08 Jun 2011

(IC-42969P), Lt Col R B Choudhary, Inf, 08 Jun 2011

(IC-42986P), Lt Col Dinesh Kumar, Inf, 08 Jun 2011

(IC-42989H), Lt Col Mahipal Singh, Inf, 08 Jun 2011

(IC-42997F), Lt Col Babu Lal, EME, 08 Jun 2011

(IC-43006P), Lt Col R D Bahuguna, Arty, 08 Jun 2011

(IC-43007X), Lt Col Vishwajeet Singh, Inf, 08 Jun 2011

(IC-43013L), Lt Col S K Singh, Int Corps, 08 Jun 2011

(IC-43044L), Lt Col R K Rana, Int Corps, 08 Jun 2011

(IC-43046W), Lt Col N J Singh, Inf, 08 Jun 2011

(IC-43066K), Lt Col S S Lalotra, Arty, 08 Jun 2011

(IC-43091H), Lt Col V S N Vasista, Inf, 08 Jun 2011

(IC-43092L), Lt Col Ramphal, Arty, 08 Jun 2011

(IC-43099P), Lt Col V N Bhardwaj, Inf, 08 Jun 2011

(IC-43105X), Lt Col S K Bhardwaj, Arty, 08 Jun 2011

(IC-43125L), Lt Col A K Chakrabarti, Sigs, 08 Jun 2011

(IC-43138H), Lt Col Rajendran Nair, Arty, 08 Jun 2011

(IC-43153X), Lt Col Rajeev Rattan, Engrs, 08 Jun 2011

(IC-43154A), Lt Col R K Nair, EME, 08 Jun 2011

(IC-43161W), Lt Col Harjeet Singh, Arty, 08 Jun 2011

(IC-44968L), Lt Col R D Singhal, Engrs, 13 Jun 2011

(IC-45165L), Lt Col S K Saharawat, Inf, 10 Nov 2009

(IC-45206K), Lt Col Surendra Singh, Inf, 25 Apr 2010

(IC-45303F), Lt Col Sunil Sankhyan, AC, 09 Nov 2010

(IC-45372X), Lt Col P K Yadav, AC, 24 Apr 2011

(IC-45387A), Lt Col R P Singh, AAD, 20 Apr 2011

(IC-42414N) Lt Col Rajesh Rai, Inf, 15 Dec 2010

(IC-42822Y) Lt Col KP Dhaka, ASC, 08 Jun 2011

(IC-42850L) Lt Col Narendra Singh, Arty, 08 Jun 2011

(IC-42901N) Lt Col Vinod Taneja, Arty, 08 Jun 2011

(IC-42913H) Lt Col Sushil Gurung, Mech Inf, 08 Jun 2011

(IC-42984K) Lt Col S Joseph, Inf, 08 Jun 2011

(IC-43014N) Lt Col Gautam Kalita, Mech Inf, 08 Jun 2011

(IC-43019M) Lt Col V Taneja, Sigs, 08 Jun 2011  
 (IC-43030L) Lt Col Rajev Dhar, Inf, 08 Jun 2011  
 (IC-43031N) Lt Col Amrik Singh, Inf, 08 Jun 2011  
 (IC-43036M) Lt Col VS Bhatnagar, Arty, 08 Jun 2011  
 (IC-43043H) Lt Col SK Katyal, Sigs, 08 Jun 2011  
 (IC-43045N) Lt Col Bikram Singh, Arty, 08 Jun 2011  
 (IC-43052K) Lt Col AK Pandey, ASC, 08 Jun 2011  
 (IC-43060H) Lt Col Sunil Singh, Sigs, 08 Jun 2011  
 (IC-43062N) Lt Col Amitabh Bose, Arty, 08 Jun 2011  
 (IC-43065F) Lt Col SK Gupta, AOC, 08 Jun 2011  
 (IC-43083K) Lt Col VS Shivrain, Inf, 08 Jun 2011  
 (IC-43085P) Lt Col SS Rana, Inf, 08 Jun 2011  
 (IC-43098M) Lt Col PK Jha, Sigs, 08 Jun 2011  
 (IC-43107H) Lt Col VK Shoree, Arty, 08 Jun 2011  
 (IC-43109N) Lt Col SK Roy, AAD, 08 Jun 2011  
 (IC-43114Y) Lt Col JS Gurung, AC, 08 Jun 2011  
 (IC-43133K) Lt Col L Sharma, AOC, 08 Jun 2011  
 (IC-43134M) Lt Col Sanjay Mathur, Arty, 08 Jun 2011  
 (IC-43137A) Lt Col Sanjay Rawat, ASC, 08 Jun 2011  
 (IC-43141H) Lt Col Sanjay Kothari, Arty, 08 Jun 2011  
 (IC-43146F) Lt Col Rahul Jauhri, Mech Inf, 08 Jun 2011  
 (IC-43148M) Lt Col AK Sharma, Inf, 08 Jun 2011  
 (IC-43151M) Lt Col GP Singh, AOC, 08 Jun 2011  
 (IC-43168A) Lt Col R Sharma, Engrs, 13 Jun 2011  
 (IC-44172H) Lt Col KK Mishra, Engrs, 13 Jun 2011  
 (IC-44176Y) Lt Col Krishna Kishore, Engrs, 13 Jun 2011  
 (IC-44187L) Lt Col Rajeev Agarwal, Engrs, 13 Jun 2011  
 (IC-44192W) Lt Col BK Singh, Engrs, 13 Jun 2011  
 (IC-44904A) Lt Col BK Pandey, EME, 13 Jun 2011  
 (IC-44905H) Lt Col Sachin Marwah, EME, 13 Jun 2011  
 (IC-44910N) Lt Col RB Subramaniam, EME, 13 Jun 2011  
 (IC-44917X) Lt Col Vidya Sagar, Engrs, 13 Jun 2011  
 (IC-44918A) Lt Col SK Shankhyan, Engrs, 13 Jun 2011  
 (IC-44925W) Lt Col PB Sabale, Sigs, 13 Jun 2011  
 (IC-44932M) Lt Col AK Singh, Engrs, 13 Jun 2011  
 (IC-44940L) Lt Col VP Kumar, Sigs, 13 Jun 2011  
 (IC-44950P) Lt Col A M Ramachandra, Sigs, 13 Jun 2011

(IC-44951X) Lt Col GGK Nair, Engrs, 13 Jun 2011  
 (IC-44956W) Lt Col SR Kelaneya, Engrs, 13 Jun 2011  
 (IC-44957Y) Lt Col GYS.Reddi, EME, 13 Jun 2011  
 (IC-44973W) Lt Col Vijay Singh, EME, 13 Jun 2011  
 (IC-44974Y) Lt Col VK Sharma, Sigs, 13 Jun 2011  
 (IC-44976K) Lt Col T Hegde, EME, 13 Jun 2011  
 (IC-44985L) Lt Col Prakash Kumar MP, Engrs, 13 Jun 2011  
 (IC-44986N) Lt Col Shalabh Khare, Sigs, 13 Jun 2011  
 (IC-45408L) Lt Col Rajinder Singh, AC, 24 Apr 2011

Major to be Subs Lt Col (Time Scale)

(IC-38520P) Maj Harjaspal Singh Gill, Arty, 14 Jan 2000

TK DAS  
 Dy Director  
 MS 8A

No. 490, dated 29th September 2011—The President is pleased to make the following promotions in respect of MNS Officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

Maj to Lt Col (TS)

Rank & Name, Pers Number, Date of Promotion

Lt Col S G Jyothi (NR-19901F), 14 Sep 2010  
 Lt Col Suma K S (NR-19902K), 14 Sep 2010  
 Lt Col Nisha Sathisan P (NR-19904P), 14 Sep 2010  
 Lt Col Sheela S V (NR-19905X), 14 Sep 2010  
 Lt Col Sheeba Jacob (NR-19907H), 14 Sep 2010  
 Lt Col Jessy Varghese (NR-19908L), 14 Sep 2010  
 Lt Col Saija V P (NR-19909N), 14 Sep 2010  
 Lt Col Jhancy P S (NR-19912N), 14 Sep 2010  
 Lt Col Sushama Thomas (NR-19914Y), 14 Sep 2010  
 Lt Col Poonam Dubey (NR-19915F), 14 Sep 2010  
 Lt Col Reethamma V J (NR-19916K), 14 Sep 2010  
 Lt Col Mercy Mathai K (NR-19917M), 14 Sep 2010  
 Lt Col Mariamma Thomas (NR-19920M), 14 Sep 2010  
 Lt Col Lilly Kumari (NR-19922X), 14 Sep 2010  
 Lt Col Jaya C R (NR-19923A), 14 Sep 2010  
 Lt Col Neelam Kumari (NR-19925L), 14 Sep 2010  
 Lt Col Susamma George (NR-17958X), 28 Dec 2003

## Capt to Maj

Rank &amp; Name, Pers No., Date of Promotion

Maj Chanchal Arora (NR-20776P), 21 Aug 2010

Maj A Priscilla Devakirubai (NR-20779X), 21 Aug 2010

Maj Anita Nair D (NR-20780X), 21 Aug 2010

Maj B Vijaya (NR-20781A), 21 Aug 2010

Maj Poonam Singh (NR-20782H), 21 Aug 2010

Maj Preeti Bansal (NR-20784P), 21 Aug 2010

Maj Geetha Rawat (NR-20786A), 21 Aug 2010

Maj Maya Pradeep (NR-20787F), 21 Aug 2010

Maj Sweta Deorani (NR-20788K), 21 Aug 2010

Maj Sheela N (NR-20789M), 21 Aug 2010

Maj Pinki Naha (NR-20791K), 21 Aug 2010

Maj N Kalpana (NR-20792M), 21 Aug 2010

Maj Chitra Nair (NR-20793P), 21 Aug 2010

Maj Shiji K S (NR-20794X), 21 Aug 2010

Maj Deepa Mol M S (NR-20796H), 21 Aug 2010

Maj Subha S (NR-20797L), 21 Aug 2010

Maj Baby Annie A (NR-20798N), 21 Aug 2010

Maj Alice John (NR-20799W), 21 Aug 2010

Maj Ritu Saini (NR-20800A), 21 Aug 2010

Maj Sushmita Kumari (NR-20803N), 21 Aug 2010

Maj Sunita Sharma (NR-20804W), 21 Aug 2010

Maj Smitha Rani E N (NR-20805Y), 21 Aug 2010

Maj Manju S K (NR-20806F), 21 Aug 2010

Maj Lekha C (NR-20807K), 21 Aug 2010

Maj Sreeja L (NR-20808M), 21 Aug 2010

Maj Jeomy B V (NR-20810K), 21 Aug 2010

Maj Gurbinder Kaur (NR-20811M), 21 Aug 2010

Maj Seema Patel (NR-20812P), 21 Aug 2010

Maj Bini Balkrishnan (NR-20813X), 21 Aug 2010

Maj Shyja P R (NR-20814A), 21 Aug 2010

Maj Saly Xavier (NR-20815H), 21 Aug 2010

Maj Letha Kumari MS (NR-20816L), 21 Aug 2010

Maj Rina Pankaj (NR-20817M), 21 Aug 2010

Maj Anju Bala (NR-20818W), 21 Aug 2010

Maj Subadra Kumari (NR-20819Y), 21 Aug 2010

Maj Saroj Sharma (NR-20820Y), 21 Aug 2010

Maj Vincy James (NR-20821W), 21 Aug 2010

Maj Sheeba R (NR-20823F), 21 Aug 2010

Maj Smitha Samuel (NR-20824K), 21 Aug 2010

Maj Bindu A K (NR-20825M), 21 Aug 2010

Maj Jasmine T Gracy (NR-20826P), 21 Aug 2010

Maj Sreekala P (NR-20827X), 21 Aug 2010

Maj Basundhara Pal (NR-20828A), 21 Aug 2010

Maj Subhra Banerjee (NR-20829H), 21 Aug 2010

Maj Tukun Kansabanik (NR-20830X), 21 Aug 2010

Maj Vijayakumary KS (NR-20831A), 21 Aug 2010

Maj Sherly VM (NR-20832H), 21 Aug 2010

Maj Sandhya VS (NR-20833L), 21 Aug 2010

Maj Arti Basu Roy (NR-20834N), 21 Aug 2010

Maj Susan Skariah (NR-20835W), 21 Aug 2010

Maj Sushama Kumari K (NR-20836Y), 21 Aug 2010

Maj Vandana Mahish (NR-20837F), 21 Aug 2010

Maj N Sajila (NR-20840F), 21 Aug 2010

Maj Raji T Sekhar (NR-20841K), 21 Aug 2010

Maj Urmi Dhami (NR-20842M), 21 Aug 2010

Maj Bijji Paul (NR-20843P), 21 Aug 2010

Maj Suma George (NR-20844X), 21 Aug 2010

Maj Rosamma R (NR-20845A), 21 Aug 2010

Maj Sreelatha A (NR-20846H), 21 Aug 2010

Maj Susha Kumari (NR-20847L), 21 Aug 2010

Maj Baljit Kaur (NR-20848N), 21 Aug 2010

Maj Leena (NR-20850L), 21 Aug 2010

Maj Prabha Kumari (NR-20851N), 21 Aug 2010

Maj Swagata Mohite (NR-20852W), 21 Aug 2010

Maj Rita Roy Choudhury (NR-20853Y), 21 Aug 2010

Maj Beena Issac (NR-20854F), 21 Aug 2010

Maj Sasmitha (NR-20855K), 21 Aug 2010

Maj Sreejaya B (NR-20857P), 21 Aug 2010

Maj Nirupama T (NR-20860P), 21 Aug 2010

Maj Rehana A (NR-20861X), 21 Aug 2010

Maj Shyni Mathew (NR-20862A), 21 Aug 2010

Maj Mitali Sarkar (NR-20863H), 21 Aug 2010

Maj Sweta Madhavan (NR-20864L), 21 Aug 2010	Maj Sunila Antony (NR-20907P), 21 Aug 2010
Maj Veena Pathak (NR-20865N), 21 Aug 2010	Maj Kausher Bano (NR-20908X), 21 Aug 2010
Maj Bindu J (NR-20866W), 21 Aug 2010	Maj Bharati Avencio (NR-20909A), 21 Aug 2010
Maj Rekha Rani Sharma (NR-20868F), 21 Aug 2010	Maj M Rajini (NR-20910F), 21 Aug 2010
Maj Sivabakkiam S (NR-20869K), 21 Aug 2010	Maj Sumathi K (NR-20911X), 21 Aug 2010
Maj Sandeep Kaur Waraich (NR-20871F), 21 Aug 2010	Maj Garima Singh (NR-20912A), 21 Aug 2010
Maj Mukabanisha J Sun (NR-20872K), 21 Aug 2010	Maj Sindhu Vijayalakshmi (NR-20914L), 21 Aug 2010
Maj Vineetha M (NR-20873M), 21 Aug 2010	Maj Sreekala P S (NR-20915N), 21 Aug 2010
Maj Deepa S Nath (NR-20874P), 21 Aug 2010	Maj Sabita Das (NR-20916W), 21 Aug 2010
Maj Reena AS (NR-20875X), 21 Aug 2010	Maj Muthu Selvi N (NR-20917Y), 21 Aug 2010
Maj Laicy Fernandez (NR-20876A), 21 Aug 2010	Maj Jyotsana G Bjantri (NR-20920Y), 21 Aug 2010
Maj Reena Thomas (NR-20878L), 21 Aug 2010	Maj Nisha Madhavan (NR-20925X), 21 Aug 2010
Maj Manjusha A K (NR-20879N), 21 Aug 2010	Maj Ancy P John (NR-20927H), 21 Aug 2010
Maj Asha K Abraham (NR-20880H), 21 Aug 2010	Maj Lekha Nair (NR-20928L), 21 Aug 2010
Maj Pooja Sharma (NR-20882N), 21 Aug 2010	Maj Rekha Sharma (NR-20929N), 21 Aug 2010
Maj Shrabani Mallick (NR-20883W), 21 Aug 2010	Maj Malati Gope (NR-20930H), 21 Aug 2010
Maj Suman Kumari Sharma (NR-20884Y), 21 Aug 2010	Maj Nirmala Bisht (NR-20931L), 21 Aug 2010
Maj Kanchan Kumari (NR-20885F), 21 Aug 2010	Maj Smitha V S (NR-20933W), 21 Aug 2010
Maj Chandana Kumari (NR-20886K), 21 Aug 2010	Maj Suman Bala (NR-20937M), 21 Aug 2010
Maj Alka Thomas (NR-20888P), 21 Aug 2010	Maj Arti Dixit (NR-20942X), 21 Aug 2010
Maj Sumana Bhattacharya (NR-20889X), 21 Aug 2010	Maj Nishi Samad (NR-20943A), 21 Aug 2010
Maj Steeja K S (NR-20890M), 21 Aug 2010	Maj Babitha P V (NR-20946N), 21 Aug 2010
Maj Sreekala MS (NR-20891P), 21 Aug 2010	Maj M Geetha Testimona (NR-20947W), 21 Aug 2010
Maj Sunita Sinha (NR-20892X), 21 Aug 2010	Maj Upasana Gupta (NR-20948Y), 21 Aug 2010
Maj Virpal Kaur Sidhu (NR-20893A), 21 Aug 2010	Maj T Sindhu (NR-20949F), 21 Aug 2010
Maj Vineetha M A (NR-20894H), 21 Aug 2010	Maj Larish V (NR-20952F), 21 Aug 2010
Maj Jolamma Daniel (NR-20895L), 21 Aug 2010	Maj Mahalakshmi Nothalap (NR-20953K), 21 Aug 2010
Maj Sheeba Sigy (NR-20896N), 21 Aug 2010	Maj Meena Suman (NR-20955P), 21 Aug 2010
Maj Patricia Stephen (NR-20897W), 21 Aug 2010	Maj Satbir Kaur (NR-20956X), 21 Aug 2010
Maj Somi K Simon (NR-20898Y), 21 Aug 2010	Maj Smitha R (NR-20958H), 21 Aug 2010
Maj Sreeja K (NR-20899F), 21 Aug 2010	Maj Manju P (NR-20959L), 21 Aug 2010
Maj Meby Joseph (NR-20901N), 21 Aug 2010	Maj Reena Chauhan (NR-20960A), 21 Aug 2010
Maj Nisha V Bhaskar (NR-20902W), 21 Aug 2010	Maj Sreedevi S (NR-20961H), 21 Aug 2010
Maj Jayshri Banerjee (NR-20904F), 21 Aug 2010	Maj Mukta Kumari Verma (NR-20962L), 21 Aug 2010
Maj Irene Francis (NR-20905K), 21 Aug 2010	Maj Meena Gill (NR-20967K), 21 Aug 2010
Maj Urvashi (NR-20906M), 21 Aug 2010	Maj Vungthian Ching Smite (NR-20968M), 21 Aug 2010
	Maj Linny Vincent (NR-20972P), 21 Aug 2010

Maj Smitha Sam (NR-20974A), 21 Aug 2010  
 Maj Shilpi Kumari (NR-20975H), 21 Aug 2010  
 Maj G Sabina (NR-20978W), 21 Aug 2010  
 Maj Manju G Nath (NR-20980N), 21 Aug 2010  
 Maj Rupa Kumari (NR-20981W), 21 Aug 2010  
 Maj Saritha B Nair (NR-20982Y), 21 Aug 2010  
 Maj Sreekala T D (NR-20984K), 21 Aug 2010  
 Maj Praveen Kumari Sharma (NR-20985M), 21 Aug 2010  
 Maj Anju Kumari (NR-20991A), 21 Aug 2010  
 Maj Usha K (NR-20993L), 21 Aug 2010  
 Maj Seema Devi Rathore (NR-20994N), 21 Aug 2010  
 Maj Kavita Kumari (NR-21002Y), 21 Aug 2010  
 Maj Archana Gupta (NR-20919K), 21 Aug 2010  
 Maj Priya IP (NR-20935F), 21 Aug 2010  
 Maj T P Ambika (NR-20979Y), 21 Aug 2010  
 Maj Ambili T S (NR-20990X), 21 Aug 2010  
 Maj Meera Kumari S (NR-20992H), 21 Aug 2010  
 Maj Sarita Jain (NR-20995W), 21 Aug 2010  
 Maj Kumari Rashmi (NR-20996Y), 21 Aug 2010

JK Grewal  
 Maj Gen  
 Addl DGMNS

#### ARMY BRANCH

No. 491, dated 29th September 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No., Name and Arm/Service

(IC-75233) Kapgate Sachin Kisan, EME  
 (IC-75234) Bhagwat Rohit Rajan, Arty  
 (IC-75235) Sandeep Dhawan, Engrs  
 (IC-75236) Arun Kumar, EME  
 (IC-75237) Ramandeep Singh, EME  
 (IC-75238) Saurabh Joshi, Engrs  
 (IC-75239) Abhimanyu Singh, Sigs  
 (IC-75240) Vivek Kumar Pandey, Engrs  
 (IC-75241) Pillay Franklin William, Engrs  
 (IC-75242) Puneet Sharma, AAD  
 (IC-75243) Pramod Kumar Dubey, Engrs

(IC-75244) Rajesh Rana, Engrs  
 (IC-75245) Jaswant Singh Thakur, Engrs  
 (IC-75246) Anand Sihag, Inf  
 (IC-75247) Bikramjit Singh Shahid, EME  
 (IC-75248) Karan Panwar, Engrs  
 (IC-75249) Devendra Singh, AC  
 (IC-75250) Gurvikram Singh Sarna, EME  
 (IC-75251) Ajay Salaria, Sigs  
 (IC-75252) Harpal Singh, Engrs  
 (IC-75253) Abhimanyu Joshi, EME  
 (IC-75254) Dinesh V Nayak, EME  
 (IC-75255) Bhavesh Kumar, Engrs  
 (IC-75256) Chandan Sobti, Engrs  
 (IC-75257) Sarat Chandra Susarapu, EME  
 (IC-75258) Sarvesh Kumar Swarankar, Engrs  
 (IC-75259) Kerminder Singh, Inf  
 (IC-75260) Ashish Dalal, Inf  
 (IC-75261) Mandeep Singh Dilawri, Sigs  
 (IC-75262) Vikrum Ernest Pawar, Engrs  
 (IC-75263) Abhishek Mishra, EME  
 (IC-75264) Ravindra Kumar, Engrs  
 (IC-75265) Bakoray Sameer Pradeep, Sigs  
 (IC-75266) Ashit Kumar Rana, Engrs  
 (IC-75267) Abhijeet Mohapatra, Engrs  
 (IC-75268) Agarwal Akash Sushil, Engrs  
 (IC-75269) Abhishak Agarwal, Engrs  
 (IC-75270) Ashish Negi, EME  
 (IC-75271) Arun S Nair, Engrs  
 (IC-75272) Deshmukh Upendra Deepak, Arty  
 (IC-75273) Kasarabada Raviteja, Arty  
 (IC-75274) Nagarkar Karan Nitin, Engrs  
 (IC-75275) Viswanath V S, Engrs  
 (IC-75276) Anubhav Sinha, Sigs  
 (IC-75277) Sumit Kumar Tiwari, Engrs  
 (IC-75278) Shyam K M, Engrs  
 (IC-75279) Rahul Bareja, Engrs  
 (IC-75280) Karthick Rajkumar A, Engrs  
 (IC-75281) Arun Kumar Mishra, Engrs  
 (IC-75282) Saurabh Garg, Engrs

(IC-75283) Karan Singh, EME  
 (IC-75284) Mohammed Ayub Subedar, EME  
 (IC-75285) Rahul Vyas, Inf  
 (IC-75286) Shukla Sudhanshu, Engrs  
 (IC-75287) Rishabh Bajpai, Engrs  
 (IC-75288) Arjun Sood, Engrs  
 (IC-75289) Rahul Nair, EME  
 (IC-75290) Mrinal Agarwal, Engrs  
 (IC-75291) Shivanand C Hipparagi, EME  
 (IC-75292) Chinmay Nair, Sigs  
 (IC-75293) Nipun Sirohi, EME  
 (IC-75294) Ripudaman Singh, EME

—14 Dec 2010

IC No., Name, Arm and Date of Subs Capt

(IC-55966) Rohit Gurung, AC, 07 Nov 2002  
 (IC-66621) Jonathan Alexander, Inf, 17 Apr 2008  
 (IC-71220) Ajay Raj Singh Chauhan, MF, 13 Dec 2010

## SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to be Capt

SS No., Name, Arm, Date of Seniority, Course, Revised Date of Seniority for Promotion and Date of grant of Subs rank of Capt

(SS-44224) Abhiraj Tyagi, Sigs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44225) Ganesh Bhandari, Inf, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44226) Santosh Kumar Yadav, Arty, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44227) Tijo Joseph, Inf, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44228) Aditya Dogra, EME, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44229) Rahul Kumar Verma, Inf, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44230) Varun Gupta, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44232) Anil Kumar Rath, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44233) N Anandaraj, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44234) Kunal Singh, EME, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44236) Rahul Kher, Sigs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44237) Ashish Shrivastava, Inf, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44240) Ishan Sharma, EME, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44243) Ram Mohan Sharma, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44245) Simarpreet Singh Sehgal, ASC, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44246) Sandeep Kumar Pandey, Int 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44249) Mithlesh Kumar Singh, EME, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44250) Bubai Kumar Biswas, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44251) Rajendra Kumar Singh, AOC, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44252) Shamsher, AC, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44254) Rishabh Srivastava, Sigs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44256) Ashiesh Kumar Dwivedi, Sigs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44257) Harpreet Singh, Arty, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44259) Pratik Oka, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44263) Sanjay Kumar, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44265) Shreyas Sharma, Sigs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44266) Nitin Verma, EME, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44267) Arun Sreedharan, Inf, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44268) Robin Bhardwaj, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44269) Divyajeet Singh Jamwal, Inf, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44270) Ravi Sharma, Inf, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44272) Gaganpreet Singh, Arty, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44273) Sushil Kumar Chahar, EME, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44274) Sumit Sagotra, Sigs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44275) Anuraj T V, Inf, 21 Sep 2008, SSC-33 (T),  
21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44277) Nikant Rath, AC, 21 Sep 2008, SSC-33 (T),  
21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44278) Vinayak Alias Laxman Patil, Arty, 21 Sep 2008,  
SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44279) Mayank Bharadwaj, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-  
33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44281) Vikram Chandragouda Patil, EME, 21 Sep 2008,  
SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44282) Arungandhi N, Inf, 21 Sep 2008, SSC-33 (T),  
21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44283) Varun Sharma, Mech, 21 Sep 2008, SSC-33  
(T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44285) Rohit Kumar Yadav, Sigs, 21 Sep 2008, SSC-  
33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44286) Kalaivanan D, Sigs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T),  
21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44287) Rakesh Ranjan Sahu, AAD, 21 Sep 2008,  
SSC-33 (T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44288) Govinda Prasad, Arty, 21 Sep 2008, SSC-33  
(T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44290) Nishith Bhardwaj, EME, 21 Sep 2008, SSC-33  
(T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44292) Basil John, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T),  
21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44293) Vivek Varma, EME, 21 Sep 2008, SSC-33 (T),  
21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44295) Rajan Bangar, Inf, 21 Sep 2008, SSC-33 (T),  
21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44296) Rishi Katiyar, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-33 (T),  
21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44297) Arpit Mehrotra, Engrs, 21 Sep 2008, SSC-33  
(T), 21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44298) Rahul Sharma, ASC, 21 Sep 2008, SSC-33 (T),  
21 Oct 2008, 21 Oct 2010

(SS-44301) Abdul Hameed, Inf, 21 Sep 2008, SSC-33 (T),  
21 Oct 2008, 21 Oct 2010

PRABHAT ROSS  
Dy Dir  
MS 8C

#### ARMY BRANCH

No. 492, dated 30th September 2011—The President is  
pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

##### INFANTRY

##### 4 GR

##### To be Nb Sub

Hav Dal Bahadur Gurung (No. 5346353M now JC-  
612846L), 01 Jan 2011

Hav Nar Bahadur Pun (No. 5346362N now JC-612847N),  
01 Jan 2011

Hav Bishan Thapa (No. 5346400Y now JC-612848W),  
04 Dec 2010

(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces  
wef 01 Nov 2010)

Hav Gyanendra Balal (No. 5346959W now JC-612849Y),  
15 Mar 2011

(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces  
wef 17 Feb 2011)

Hav Samsher Bahadur Thapa (No. 5346363W now JC-  
612850N), 01 Mar 2011

Hav Gambir Singh Gurung (No. 5044417P' now JC-  
612851W), 01 Apr 2011

Hav Dal Bahadur Thapa (No. 5346375L now JC-612852Y),  
01 Apr 2011

Hav Anil Kumar Shreshta (No. 5346669Y now JC-  
612853F), 01 Apr 2011

(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces  
wef 24 Mar 2011)

Hav Shyam Sunder Thapa (No. 5346568L now JC-  
612854K), 26 Apr 2011

(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces  
wef 01 Apr 2011)

Hav Sudhan Thapa (No. 5346834Y now JC-612855M),  
23 Apr 2011

(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces  
wef 04 Apr 2011)

Hav Bir Bahadur Gurung (No. 5346434M now JC-612856P),  
01 May 2011

##### 5 GR (FF)

##### To be Nb Sub (GD)

Hav Tika Ram Thapa (No. 5450787Y now JC-618039M),  
06 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 5451569M now JC-  
618040F), 01 Feb 2011



Hav Man Bahadur Gurung (No. 5450755W now JC-618041K), 01 Feb 2011

Hav Fatta Bahadur Rana (No. 5450759M now JC-618042M), 01 Feb 2011

Hav Durga Bahadur Gurung (No. 5450761K now JC-618043P), 01 Feb 2011

To be Nb Sub (GD)/Nb Sub (RT)

Rect (RT) Chandi Prasad Bhatt (No. 618013X now JC-618013X), 19 Feb 2011

Hav Kesh Bahadur Tilija Pun (No. 5450769W now JC-618049W), 27 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bal Kumar Thapa (No. 5450836W now JC-618050L), 01 Apr 2011

Hav Bhim Bahadur Pun (No. 5450979W now JC-618051N), 01 Apr 2011

To be Nb Sub (Clk/SD) and Nb Sub (GD)

Hav Gum Bahadur Thapa (No. 5451001N now JC-618044X), 11 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bhadra Bahadur Ghale (No. 5450635X now JC-618045A), 01 Mar 2011

Hav/Clk Javed Akhtar (No. 4184169L now JC-618046H), 01 Apr 2011

Hav Min Bahadur Thapa (No. 5450767L now JC-618047L), 01 Mar 2011

Hav Bhuwan Thapa (No. 5450765A now JC-618048N), 01 Mar 2011

Hav Padam Bahadur Ghale (No. 5451022K now JC-618034N), 19 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Amrik Singh (No. 5451055P now JC-618035W), 01 Feb 2011

Hav Man Bahadur Mashrain (No. 5450660W now JC-618036Y), 20 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ganga Bahadur Gurung (No. 5450680K now JC-618037F), 20 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Tej Bahadur Thapa (No. 5451011X now JC-618038K), 20 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

8GR

To be Nb Sub (GD)/Clk

Hav Vinesh Kumar Karki (No. 5752283H now JC-623958L), 15 Mar 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Ghanashyam Misra (No. 5752644W now JC-623957H), 01 Mar 2011

Hav/Clk Benudhar Pathari (No. 6389811F now JC-623959N), 01 Apr 2011

Hav Shiva Shankar (No. 5752218H now JC-623960H), 01 Apr 2011

Hav Prem Bahadur (No. 13617503Y now JC-623961L), 01 Apr 2011

JAK RIF

To be Subs Nb Sub (GD)

Hav Romesh Singh (No. 13752442A now JC-581240X), 16 Mar 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Kewal Kumar (No. 13752444L now JC-581241A), 16 Mar 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Vinod Kumar (No. 13752446W now JC-581242H), 16 Mar 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Randhir Singh (No. 13752488H now JC-581243L), 16 Mar 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2010)

Hav Ram Singh (No. 13751577P now JC-581244N), 02 Mar 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2010)

Hav Nar Bahadur Thapa (No. 13751082H now JC-581245W), 28 Feb 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2011)

Hav Jugal Kishore Sharma (No. 13752988A now JC-581246Y), 21 Feb 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2011)

Hav Ravi Kumar (No. 13754023F now JC-581247F), 25 Mar 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 18 Feb 2011)

Hav Diwan Chand Thakur (No. 13752770N now JC-581248K), 01 Mar 2011

#### THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Udami Ram Yadav (No. 4181928P now JC-540912K), 23 Feb 2011/01 Dec 2010\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect pay and allowances)

Hav Hem Chandra Pandey (No. 4183066A now JC-540913M), 05 Mar 2011/01 Jan 2011\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect pay and allowances)

Hav Rajendra Singh Supyal (No. 4181875F now JC-540914P), 01 Mar 2011/01 Feb 2011\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect pay and allowances)

Hav Kundan Singh (No. 4180990P now JC-540915X), 01 Mar 2011/01 Feb 2011\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect pay and allowances)

Hav Birendra Singh (No. 4183729A now JC-540916A), 04 Mar 2011/01 Mar 2011\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect pay and allowances)

Hav Harendra Singh (No. 4181663W now JC-540917H), 26 Feb 2011/01 Jan 2011\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect pay and allowances)

Hav Narendra Singh Chauhan (No. 4183160K now JC-540918L), 01 Mar 2011

Hav Shankar Lal Yadav (No. 4181366P now JC-540919N), 01 Mar 2011

Hav Aad Ram Yadav (No. 4184238W now JC-540920H), 07 Apr 2011/01 Mar 2011\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect pay and allowances)

Hav Sunder Lal Yadav (No. 4183590Y now JC-540921L), 01 Apr 2011

Hav Trilok Chandra (No. 4182188X now JC-540922N), 01 Apr 2011

Hav Ashok Kumar (No. 4183550M now JC-540923W), 01 Apr 2011

Hav Suresh Chandra Kapri (No. 4181215K now JC-540924Y), 01 Apr 2011

#### THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (RT)

Rect RT Sanjiv Kumar Tripathi (No. 560524N now JC-560524N), 19 Feb 2011

Rect RT Dharmendra Dwevedi (No. 560525W now JC-560525W), 19 Feb 2011

Rect RT Sanjay Kumar Pandey (No. 560526Y now JC-560526Y), 19 Feb 2011

To be Nb Sub (GD)

Hav Yakub Lakra (No. 4268248L now JC-560517X), 22 Feb 2011/01 Oct 2010(S)\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect pay and allowances)

Hav Gachan Murmu (No. 4262640A now JC-560518A), 16 Jan 2011/01 Oct 2010(S)\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Oct 2010 without effect pay and allowances)

Hav Suban Barla (No. 4269053M now JC-560519H), 16 Feb 2011/01 Nov 2010(S)\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010(S) without effect pay and allowances)

Hav Binod Kumar Gupta (No. 4269178K now JC-560520K), 22 Feb 2011/12 Dec 2010(S)\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Dec 2010(S) without effect pay and allowances)

CHMAjaya Kumar (No. 4267337X now JC-560521A), 01 Feb 2011/01 Jan 2011(S)\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect pay and allowances)

Hav Sheo Narayan Singh (No. 4267073F now JC-560522H), 05 Mar 2011/15 Jan 2011(S)\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Jan 2011 without effect pay and allowances)

CHMHarendra Thakur (No. 4266542M now JC-560523L), 01 Feb 2011/01 Feb 2011(S)\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect pay and allowances)

Hav Dhananjay Kumar Pandey (No. 4270302M now JC-560527F), 11 Feb 2011/11 Oct 2010(S)\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Oct 2010(S)\* without effect pay and allowances)

CQMH Aresh Kumar Gochhayat (No. 4269570K now JC-560528K), 01 Mar 2011/07 Nov 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Nov 2010 (S)\* without effect on pay and allowances)

Hav Surjan Lohar (No. 4273430P now JC-560529M), 10 Mar 2011/01 Mar 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 (S)\* without effect on pay and allowances)

Hav Ravindra Kumar Chaudhary (No. 4268813X now JC-560530F), 08 Mar 2011/01 Mar 2011(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 (S)\* without effect on pay and allowances)

#### The Sikh Regiment

##### To be Nb Sub

Hav Bachan Singh (No. 3390746W now JC-500320X), 03 Mar 2011

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jodh Singh (No. 3390362F now JC-500321A), 27 Feb 2011

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jaswinder Singh (No. 3389710L now JC-500322H), 01 Mar 2011

Hav Charat Singh (No. 3391652L now JC-500323L), 04 Mar 2011

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ajit Singh (No. 3388856M now JC-500324N), 25 Mar 2011

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Lakhwinder Singh (No. 3392467K now JC-500325W), 12 Mar 2011

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Kulwant Singh (No. 3391107F now JC-500326Y), 01 Mar 2011

Hav Charat Singh (No. 3389958P now JC-500327F), 01 Apr 2011

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Lukhvir Singh (No. 3387934M now JC-500328K), 26 Mar 2011

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jaswant Singh (No. 3387941H now JC-500329M), 01 Apr 2011

##### To be Nb Sub Clk

Hav Clk Vachan Singh (No. 3391545K now JC-500330F), 01 Apr 2011

Hav Clk Ravinder Singh (No. 3391551X now JC-500331K), 01 Apr 2011

Hav Clk Nand Kishor Pathak (No. 3391557Y now JC-500332M), 01 Apr 2011

Hav Clk Thakur Singh (No. 3391559KK now JC-500333P), 01 Apr 2011

Hav Clk Uma Shanker Chaudhary (No. 3391634H now JC-500334X), 04 Apr 2011

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Balvir Singh (No. 3391635L now JC-500335A), 01 Apr 2011

Hav Clk Dinesh Kumar (No. 2887694M now JC-500336H), 03 Apr 2011

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk w e f 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

#### THE JAT REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Mahavir Prasad Yadav (No. 3183791W now JC-490682H), 07 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Mahipal Singh Solanki (No. 3184215Y now JC-490683L), 01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bhanwar Singh Nehra (No. 3183902H now JC-490684N), 07 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect pay and allowances)

Hav Hari Singh (No. 3183169H now JC-490685W), 11 Mar 2011

Hav Raghuvir Singh (No. 3182220L now JC-490686Y), 16 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Nemi Chand Khalia (No. 3183183P now JC-490687F), 25 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Sumer Singh (No. 3183186H now JC-490688K),  
01 Apr 2011

Hav Mool Chand (No. 3182629M now JC-490689M),  
01 Apr 2011

Hav Jeetendra Singh (No. 3182001K now JC-490690F),  
08 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Sher Singh (No. 3182174F now JC-490691K),  
01 Apr 2011

Hav Dalbir Singh (No. 3183989P now JC-490692M),  
01 May 2011

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Bharat Singh (No. 3182161K now JC-490693P),  
01 Apr 2011

Hav Clk Odedra Keshav Viram (No. 3180120F now JC-  
490694X), 01 Apr 2011

Hav Clk Ram Chandra (No. 15361944H now JC-490695A),  
01 May 2011

THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Gurmel Singh (No. 4469145H now JC-510037X),  
12 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 16 Sep  
2010)

Hav Jagwinder Singh (No. 4467156W now JC-510038A),  
15 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Oct  
2010)

Hav Atama Singh (No. 4469919A now JC-510039H),  
18 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Oct  
2010)

Hav Ranjit Singh (No. 4469213L now JC-510040X), 18 Jan  
2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 17 Oct  
2010)

Hav Hukam Singh (No. 4468584F now JC-510041A),  
24 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Nov  
2010)

Hav Dilbagh Singh (No. 4467696P now JC-510042H),  
04 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 24 Nov  
2010)

Hav Nirmail Singh (No. 4467717A now JC-510043L),  
09 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 27 Nov  
2010)

Hav Roop Singh (No. 4468979H now JC-510044N), 17 Feb  
2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Dec  
2010)

Hav Satnam Singh (No. 4470051X now JC-510045W),  
15 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Dec  
2010)

Hav Makhan Singh (No. 4467695M now JC-510046Y),  
04 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 07 Dec  
2010)

Hav Harnek Singh (No. 4469752F now JC-510047F),  
07 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 14 Dec  
2010)

Hav Natha Singh (No. 4472563H now JC-510048K), 18 Feb  
2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 31 Dec  
2010)

Hav Kuldeep Singh (No. 4469306A now JC-510049M),  
09 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 03 Jan  
2011)

Hav Lal Singh (No. 4469401M now JC-510050F), 29 Jan  
2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 03 Jan  
2011)

Hav Balwant Singh (No. 4469620N now JC-510051K),  
12 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 03 Jan  
2011)

Hav Kulwinder Singh (No. 4472428P now JC-510052M),  
01 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 04 Jan  
2011)

Hav Jaswir Singh (No. 4470116A now JC-510053P), 25 Feb  
2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 11 Jan  
2011)

Hav Sarbjeet Singh (No. 4471954F now JC-510054X), 07 Mar  
2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 17 Jan 2011)

Hav Malkiat Singh (No. 4468066F now JC-510055A), 02 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 22 Jan 2011)

Hav Kuldip Singh (No. 4470796L now JC-510056H), 25 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Feb 2011)

Hav Mohinder Singh (No. 4469654F now JC-510057L), 10 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 25 Feb 2011)

To be Nb Sub (Clk) (SD)

Hav (Clk) Ram Dayal Yadav (No. 4468937W now JC-510035M), 06 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) wef 01 Feb 2011)

Hav (Clk) Sita Ram Chopra (No. 4468939F now JC-510036P), 01 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) wef 01 Feb 2011)

Hav (Clk) Deshmukh Arvind Shivaji (No. 4468978A now JC-510058N), 01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) wef 01 Mar 2011)

To be Nb Sub (GD)

Hav Amrit Singh (No. 4468363P now JC-510059W), 30 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Oct 2010)

Hav Sukhwinder Singh (No. 4472383A now JC-510060L), 22 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 25 Nov 2010)

Hav Charanjit Singh (No. 4468165K now JC-510061N), 12 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Dec 2010)

Hav Subhash Singh (No. 4470740Y now JC-510062W), 09 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 10 Dec 2010)

Hav Hardeep Singh (No. 4470069N now JC-510063Y), 10 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 22 Dec 2010)

Hav Jaswant Singh (No. 4470103H now JC-510064F), 24 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 17 Jan 2011)

Hav Kewal Singh (No. 4468102F now JC-510066M), 07 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Mar 2011)

Hav Satnam Singh (No. 4470515K now JC-510067P), 24 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Mar 2011)

Hav Jeewa Singh (No. 4470388A now JC-510068X), 23 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 02 Mar 2011)

Hav Jagsir Singh (No. 4472333P now JC-510069A), 07 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 28 Mar 2011)

Hav Gurmail Singh (No. 4470949K now JC-510070P), 07 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 29 Mar 2011)

Hav Swaran Singh (No. 4468484W now JC-510072A), 01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Apr 2011)

Hav Bachittar Singh (No. 4471715M now JC-510073H), 13 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Apr 2011)

Hav Harmail Singh (No. 4467697X now JC-510074L), 01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Apr 2011)

Hav Jagshir Singh (No. 4467862X now JC-510075N), 01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Apr 2011)

Hav Lakhbir Singh (No. 4467863A now JC-510076W), 01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Apr 2011)

Hav Manjinder Singh (No. 4468226W now JC-510077Y),  
01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Apr 2011)

Hav Nachhattar Singh (No. 4468171X now JC-510078F),  
07 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Apr 2011)

To be Nb Sub (Clk)(SD)

Hav (Clk) Surjyanarayan Panigrahy (No. 4468993P now JC-510065K), 14 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) wef 01 Mar 2011)

Hav (Clk) Satya Prakash Singh (No. 4467203H now JC-510071X), 01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) wef 01 Apr 2011)

#### THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Rajpal Singh (No. 4069923P now JC-530970A),  
24 Feb 2011/28 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jaspal Singh (No. 4072998X now JC-530971H),  
28 Mar 2011/08 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Balbir Singh (No. 4069818Y now JC-530976F),  
05 Mar 2011/01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jagjit Singh (No. 4069821Y now JC-530977K), 05 Mar 2011/01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Dalbir Singh (No. 4069827A now JC-530978M),  
25 Mar 2011/01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Karma Nand Uniyal (No. 2884443X now JC-530979P),  
01 Mar 2011

Hav Rakesh Chandar (No. 4069677P now JC-530980K),  
11 Mar 2011/01 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Beerendra Singh (No. 4070296A now JC-530981M),  
01 Mar 2011

Hav Satyapal Singh (No. 4070497Y now JC-530982P),  
01 Mar 2011

Hav Netra Singh Kandari (No. 4070482W now JC-530983X), 01 Mar 2011

Hav Arun Kumar (No. 4070619X now JC-530984A),  
01 Mar 2011

Hav Birender Singh Bhandari (No. 4073248L now JC-530985H), 01 Apr 2011/07 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Awatar Singh (No. 4072379K now JC-530986L),  
01 Apr 2011

Hav Keshar Singh (No. 3391464K now JC-530987N),  
07 Apr 2011/01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Gabar Singh (No. 4070045W now JC-530988W),  
07 Apr 2011/01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ganga Singh (No. 4070635P now JC-530989Y),  
01 Apr 2011

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Anil Kumar V (No. 4070743Y now JC-530969L),  
01 Mar 2011/10 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Anil Kumar Maharaj (No. 4071081N now JC-530972L), 01 Mar 2011

Hav (Clk) Sharvan Kumar (No. 4071703K now JC-530973N), 01 Mar 2011

Hav (Clk) Padmanabhan Chenichery (No. 4071910W now JC-530974W), 01 Mar 2011

Hav (Clk) Varendra Singh (No. 4069792P now JC-530975Y),  
01 Mar 2011

Hav Ramesh Chandra (No. 4069897Y now JC-530939L),  
01 Dec 2010/01 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Dinesh Chandra Gairola (No. 4070851H now JC-530940H), 08 Feb 2011/01 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Indra Singh Rawat (No. 3391417M now JC-530941L),  
10 Dec 2010/24 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Singh Rawat (No. 4070363A now JC-530942N), 19 Jan 2011/22 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Devendra Kumar (No. 4070197X now JC-530943W), 16 Dec 2010/01 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bhangu Singh (No. 4071665Y now JC-530944Y), 10 Jan 2011/01 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gabar Singh (No. 4072554N now JC-530945F), 01 Dec 2010

Hav Dharam Datt (No. 4070192Y now JC-530946K), 01 Dec 2010

Hav Prabal Singh Negi (No. 4069867F now JC-530947M), 01 Dec 2010

Hav Bijender Singh (No. 4070145F now JC-530948P), 26 Dec 2010/01 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Raghubir Singh (No. 4071853A now JC-530949X), 01 Dec 2010

Hav Darmiyan Singh (No. 4071763Y now JC-530950M), 01 Dec 2010

Hav Mail Singh (No. 4070150M now JC-530951P), 08 Dec 2010/01 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jagdish Singh (No. 4070212F now JC-530952X), 16 Dec 2010/01 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Dharendra Singh (No. 4070270L now JC-530953A), 20 Jan 2011/20 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Atul Singh (No. 4069889A now JC-530954H), 01 Jan 2011

Hav Madan Mohan Singh (No. 4069431F now JC-530955L), 13 Jan 2011/01 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Krishna (No. 4070071X now JC-530956N), 01 Jan 2011

Hav Hari Prasad (No. 4069176P now JC-530957W), 01 Jan 2011

Hav Shyam Singh (No. 4069365Y now JC-530958Y), 01 Jan 2011

Hav Suresh Chandra Singh (No. 4070326M now JC-530959F), 01 Jan 2011

Hav Umesh Chandra (No. 4070422P now JC-530960W), 01 Jan 2011

Hav Atol Singh (No. 4070268N now JC-530961Y), 08 Jan 2011/01 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jaspal Singh (No. 4070285N now JC-530962F), 06 Jan 2011/01 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Prasad Uniyal (No. 2884271N now JC-530963K), 12 Jan 2011/03 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bharat Singh (No. 4068988W now JC-530964M), 01 Feb 2011

Hav Narayan Singh Rawat (No. 4070080Y now JC-530965P), 01 Feb 2011

Hav Jagmohan Singh (No. 4070083M now JC-530966X), 01 Feb 2011

Hav Bhupendra Singh Patwal (No. 4070431H now JC-530967A), 01 Feb 2011

Hav Bhagwan Singh (No. 4069596P now JC-530968H), 02 Feb 2011/01 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

#### THE MARATHA LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Kabadi Ramchandra Popat (No. 2789983L now JC-460349P), 20 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kadam Rajesh Tatyaba (No. 2787851Y now JC-460350K), 18 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bhande Hanumant Namdev (No. 2790991W now JC-460351M), 19 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bhapkar Bapu Vitthal (No. 2789438F now JC-460352P), 27 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Appa Desai (No. 2789454Y now JC-460353X), 07 Jan 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Dandekar Kakasaheb Baburao (No. 2786762N now JC-460354A), 04 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kumar Pundaleeka Jogi (No. 2786405L now JC-460355H), 08 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Sanjay Rajaram (No. 2790007F now JC-460356L), 14 Feb 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Venkatesh SG (No. 2786685K now JC-460357N), 29 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Mahadeo Janu Patil (No. 2785498Y now JC-460358W), 01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Gawas Santosh Fatu (No. 2789548W now JC-460359Y), 02 Mar 2011

Hav Wakale Pradeep Namdeo (No. 2788276P now JC-460360N), 07 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Nanavare Ajinath Mahadeo (No. 2790029A now JC-460361W), 01 Apr 2011

S ASHRAF  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 493, dated 30th September 2011—The President is pleased to make the following appointments/promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### SPECIAL LIST

#### ARMOURED CORPS

To be Subs Ris

Nb Ris (Pandit) Rama Nand Shukla (JC-237914L), 16 Dec 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris (Granthi) Sukhvinder Singh (JC-297127N), 01 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris (Pandit) Brajesh Tiwary (JC-238418W), 01 Sep 2010

Nb Ris (Pandit) Vijay Kumar Mishra (JC-238417N), 10 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris (Pandit) Radhey Shyam Tiwari (JC-238501N), 06 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris (Pandit) Arvind Kumar Tiwari (JC-238503Y), 15 Jun 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris (Pandit) Rajesh Kumar Mishra (JC-238502W), 01 Jul 2011

To be Nb Ris (RT)

Neeraj Mishra (JC-243730H), 14 Nov 2009

Harjit Singh (JC-244670L), 19 Feb 2011

Ashutosh Kumar Rai (JC-244702H), 19 Feb 2011

To be Nb Ris

Dfr (Dvr/Gnr) Bhoori Singh (No. 15461387K now JC-245081F), 12 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 07 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Kuldeep Singh (No. 15464088W now JC-245094Y), 01 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 22 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Babu Singh (No. 15461110L now JC-245128F), 28 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 12 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Vijay Kumar (No. 1099547Y now JC-245142N), 26 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 25 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Birpal Singh (No. 15461969K now JC-245168H), 01 Jun 2011

Dfr (Dvr/Gnr) Jaya Prakash M (No. 15461251A now JC-245184A), 07 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)



Dfr (Gnr/Opr) Kuldeep Singh (No. 15462121K now JC-245200M), 22 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 26 May 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Mohinder Singh (No. 1089710A now JC-245211Y), 07 Jun 2011

Dfr (Dvr/Opr) Amanpreet Singh (No. 15463832W now JC-245212F), 13 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 07 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Ranbir Singh (No. 15461751X now JC-245220A), 20 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 15 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Anil Datt Sharma (No. 15462268A now JC-245227K), 24 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 16 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Kasheenatha Naik (No. 15480975M now JC-245236L), 21 May 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 14 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Kaptan Singh (No. 1089924W now JC-244852Y), 14 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Gursahib Singh (No. 15466377K now JC-245191W), 01 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 21 May 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Muneshwar Singh (No. 15463420P now JC-245231M), 01 Jul 2011

Dfr (Opr/Gnr) Ashok Kumar Parmar (No. 15463672F now JC-245197X), 01 Jul 2011

Dfr (Gnr/Dvr) Arvind Kumar Singh (No. 15461479W now JC-245198A), 01 Jul 2011

Dfr (Gnr/Opr) Dhirender Kumar (No. 15463209A now JC-245214M), 04 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Dharendra Kumar (No. 15463233W now JC-245215P), 04 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Umesh Kumar Tripathi (No. 15462573M now JC-245230K), 05 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Sakti Kanta Sahoo (No. 1099768L now JC-245233X), 04 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Kulbir Singh (No. 15464031F now JC-245232P), 04 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Mangal Singh Shekhawat (No. 15462288N now JC-245238W), 02 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 25 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Richh Pal Singh (No. 15462840H now JC-245239Y), 02 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 25 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Rajendra Singh Bhaishora (No. 15464298W now JC-245240N), 02 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 25 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Gurpreet Singh (No. 15462541K now JC-245241W), 06 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Surendra M C (No. 15461446L now JC-245244K), 04 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Mahajan Dnyaneshwar T (No. 1098601P now JC-245249H), 11 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) A P Madhusoodanan (No. 1098874X now JC-245250X), 06 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Hardeep Singh (No. 15462310N now JC-245251A), 05 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Vinay Kumar Singh (No. 15461921W now JC-245131F), 04 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Prem Singh (No. 1089469Y now JC-245132K), 01 Jun 2011

Dfr (Dvr/Opr) Dilbag Singh (No. 15461756W now JC-245138L), 20 May 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Rakesh Kumar (No. 15467435P now JC-245174W), 01 Jul 2011

Dfr (Gnr/Dvr) Punam Kumar (No. 15467765N now JC-245175Y), 01 Jul 2011

Dfr (Opr/Gnr) Narayan Singh (No. 15461721A now JC-245194K), 01 Jun 2011

Dfr (Opr/Gnr) Lallan Singh (No. 15461726Y now JC-245195M), 01 Jun 2011

Dfr (Dvr/Gnr) Kali Kinkar Rana (No. 15463978K now JC-245206N), 04 Jun 2011

Dfr (Dvr/Opr) Chandra Shekher Ghosh (No. 1099615F now JC-245209F), 01 Jul 2011

Dfr (Dvr/Opr) Santosh Singh (No. 15462253X now JC-245210W), 01 Jul 2011

Dfr (Gnr/Opr) Vijay Kumar (No. 15463848F now JC-245216X), 25 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 10 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Sudhir Kumar (No. 15462059H now JC-245217A), 17 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 11 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Rajinder Singh Aulakh (No. 15461886Y now JC-245218H), 02 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Rajendra Prasad (No. 1099587A now JC-245228M), 01 Jul 2011

Dfr (Opr/Gnr) Krishan Lal (No. 1099588H now JC-245229P), 05 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Deepak Kumar Singh (No. 15461421Y now JC-245246P), 01 Jul 2011

Dfr (Opr/Gnr) Satnam Singh (No. 15461619X now JC-245247X), 01 Jul 2011

Dfr (Dvr/Gnr) Surinder Mohan (No. 15462333P now JC-245252H), 05 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Brahm Dass (No. 15464180P now JC-245261K), 15 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 09 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Jaspal Singh (No. 15464412H now JC-245263P), 15 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 09 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Hem Raj (No. 1089663N now JC-245091L), 01 Jun 2011

Dfr Ashok Kumar Sharma (No. 1098651A now JC-245092N), 01 Jun 2011

Dfr Jaswant Singh (No. 15461664K now JC-245130Y), 01 Jun 2011

Dfr Jayanta Bhuyan (No. 1099504K now JC-245144Y), 01 Jun 2011

Dfr Ramesh Singh (No. 1099315A now JC-245149X), 01 Jun 2011

Dfr Jagtar Singh (No. 15468048M now JC-245161Y), 31 May 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 28 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Tersem Singh (No. 15468117X now JC-245162F), 01 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 28 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Gajendra Singh Teatio (No. 15461366N now JC-245164M), 01 Jun 2011

Dfr Hri Ram (No. 15461493H now JC-245165P), 01 Jun 2011

Dfr Abhimanyu Singh (No. 15462367H now JC-245170A), 01 Jun 2011

Dfr Mahesh Pal Singh (No. 15462616W now JC-245171H), 01 Jun 2011

Dfr Pawan Kumar (No. 15462946P now JC-245172L), 01 Jun 2011

Dfr Kalu Singh Chundawat (No. 15461109W now JC-245173N), 01 Jun 2011

Dfr Satwinder Singh (No. 15463168F now JC-245179P), 01 Jun 2011

Dfr Devendra Singh Chandel (No. 15463052L now JC-245180K), 30 May 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Ajit Kumar Singh (No. 1089626A now JC-245189Y), 01 Jun 2011

Dfr Bhagirath (No. 15464278H now JC-245190N), 30 May 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 12 May 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Vijay Kumar (No. 15462005F now JC-245199H),  
31 May 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 26 May 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Samarath Singh (No. 1099138L now JC-245204H),  
02 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 31 May 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Dasarathan A (No. 15462336H now JC-245205L),  
06 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Dildar Singh (No. 15468493L now JC-245207W),  
10 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Harbhajan Singh (No. 15463310A now JC-245208Y),  
13 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Satyabir Singh (No. 15464361A now JC-245213K),  
13 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 09 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 494, dated 30th September 2011—The President is pleased to make the following promotion :—

PP Naik to be Hindi Officer, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 14 Mar 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay Rs. 5,400/-

G Syamala to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 04 Jan 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

D Sailaja to be Hindi Officer, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 20 Dec 2010 (F/N) Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay Rs. 5,400/-

Hari Ram Sharma to be Hindi Officer, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 14 Mar 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay Rs. 5,400/-

VP SINGH  
Dy Dir (Pers)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 495, dated 3rd October 2011—The President is pleased to promote the following Scientists of HEMRL, Pune from their existing grade to the next higher grade in the same establishment with effect from 01 Jul 2011 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted and Pay Scale of Promoted Grade

RK Pandey, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- + Special Pay Rs. 4,000/-

AK Sikder, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- + Special Pay Rs. 4,000/-

SM Danali, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,900/-

Mehilal, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,900/-

PS Kumbhar, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,900/-

Arvind Kumar, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,900/-

Tribhuvan Nath, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,900/-

Manish, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,900/-

KS Tekam, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/-

RS Palaiah, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/-

Javaid Athar, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/-

JK Nair, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/-

RS Satpute, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/-

SS Mhase, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/-

SS Pundale, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/-

PP Vadhe, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/-

MM Lavalekar, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/-

SS Patwardhan, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/-

NH Naik, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/-

Sandeep Kaur, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- +  
Rs. 7,600/-

Anu Abirami S, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- +  
Rs. 7,600/-

PM Deshmukh, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- +  
Rs. 7,600/-

CS Pant, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- +  
Rs. 7,600/-

Pankaaj Verma, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- +  
Rs. 7,600/-

Dr. Anniyappan M, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/-  
+  
Rs. 7,600/-

SR Gore, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- +  
Rs. 7,600/-

GS Dombe, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- +  
Rs. 7,600/-

PC Rao, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- +  
Rs. 7,600/-

Bhowmik Debdas, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- +  
Rs. 7,600/-

PM Jadhav, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- +  
Rs. 7,600/-

RS Patil, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- +  
Rs. 7,600/-

HARISH MOHAN  
Dy Dir (Pers)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 496, dated 3rd October 2011—Consequent upon acceptance of the voluntary retirement by the Competent Authority on consideration of the notice for Voluntary Retirement given by Shri Mohan Dubey, Sr. Accounts Officer-II, DRDO HQ under Rule 48A of CCS (Pension) Rule 1972, he has been struck off strength from this office wef 04 Aug 2011 (F/N) and transferred to pension establishment with effect from the same date.

VP SINGH  
Dy Dir (Pers)